



अदिति लिपि

(2019-2020)

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ



महाविद्यालय पत्रिका

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली



बवाना औचंदी रोड, बवाना, दिल्ली-110039

Mamta Sharma

N.Rathi

**I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039**

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल-बवाना / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalya
रेवने विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

**NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039
NAAC**

Contents

Message From The Principal's Desk	4
Chairperson's Message	5
सम्पादकीय	6
Magazine Committee	8
English Section	10
Go Away Coronavirus.....	11
Life Still Has A Meaning	12
The Wake-Up Call	12
Positive Attitude.....	13
Women.....	15
My Father.....	16
Environmental Sustainability Of Clothing Brands.....	17
The Generation Gap	20
Destiny.....	22
Power Of Youth	23
Importance Of Newspaper In Students Life.....	24
Menstruation: A Tale Of Taboo And Stigma.....	25
Why And How To Travel Free?.....	27
I Am Woman.....	30
Atal Tunnel-World's Longest Highway Tunnel.....	31
Solving The Global Water Crisis In 7 Minutes.....	32
Acid Attack - An Evil.....	36
Social Media: Boon Or Curse	38
It's Okay To Not Be Okay	41
Sexual Harassment	42
Child Labour	43
Contribution Of Technology In Education.....	44
Gender Discrimination	45
Modern Women.....	48
Photo Gallery	50
संस्कृत खण्ड	55

Mamta Sharma

2

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल / Professor-Principal
अडिती महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

NRati
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

संस्कृतभाषा.....	56
हिन्दी खण्ड.....	65
नागरिकता संशोधन कानून.....	66
माँ गंगा.....	68
नागरिकता संशोधन कानून.....	69
नागरिकता संशोधन कानून.....	71
ख्वाहिशें.....	74
स्कूल.....	75
जब पढ़े तब करे.....	75
बेवकूफ नाला और चतुर नदी.....	77
जलबूंद का बुरा स्वप्न.....	78
मुझे जीने तो बाबा.....	79
कुछ कर बंदे.....	80
आधुनिक युग में श्रीमदभागवतगीता का औचित्य.....	81

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा/Professor Mamta Sharma
 प्रोफेसर-प्रधान/Professor-Principal
 अदिती महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
 विश्वविद्यालय/University of Delhi
 बानावा, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

Mamta
 I.Q.A.C.
 Coordinator
 Aditi Mahavidyalaya
 Bawana, Delhi-110039

A
 NAAC
 Coordinator
 Aditi Mahavidyalaya
 Bawana, Delhi-110039

MESSAGE FROM THE PRINCIPAL'S DESK

We at Aditi Mahavidyalaya believe in an experiential learning system where each student is stimulated to participate. At Aditi, every efforts are made by the team of dedicated faculty and non-teaching staff to offer numerous opportunities in diverse areas

to our students. Students are encouraged to grasp the opportunities as per their interest. This helps not only in their overall progress but also prepare them for challenging future opportunities in real life. Students are sensitized towards the importance of rational thinking along with emotional balance and most essentially accepting failure as a part of life. We believe in enabling our students in such a way that they can contribute effectively in a value-based society. Keeping this in mind we equip our students with all the qualities necessary to think globally and act locally as a team.

At Aditi, we believe that education is holistic exercise and we attempt to give a whole new meaning to the word. Our pedagogy which is all-inclusive and wide-ranging supplements this. College tradition blends together - academic success with co-curricular activities that take in sports and leadership training programmes. Our aim is to create in our students love for knowledge and lifelong learning and at the same time nurturing their creativity. Pairing this basic idea with the notion of a sense of belonging to one family – the Aditi family – we care for mind, we care for the person, the emphasis is on the overall growth and development of students. I am very sure through collective efforts we can achieve more to benefit our students who are the future leaders of tomorrow.

I wish all the very best to each and every member of Aditi family!!!

Prof. Mamta Sharma
Principal
Aditi Mahavidyalaya



Mamta Sharma

श्रीमती ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रधान्या / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
एनएच, बवणा-110039 / University of Delhi
Bawana, Delhi-110039

N.Rath
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

CHAIRPERSON'S MESSAGE

It is a matter of immense pleasure and honour for me to address you all through the college magazine of Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi. It is indeed very heartening to witness that the college has carved a name for itself in the academic and cultural activities of the University of Delhi. It is fact that education is a dynamic process in which new-fangled thoughts are supplemented persistently to construct the education in progressive approach. Aditi Mahavidyalaya focuses on all round development of the students laced with morality and ethics. As an established and highly esteemed institution, college maintain an utmost academic standard, incorporated with the conduct of discipline, thereby achieving remarkable and excellent percentage of results.

The college organizes seminar, conferences, debate, games and sports meet etc. Student life extends far beyond the classroom teachings. Students perform in cultural activities, fest, play sports and volunteer in the welfare activities of community. All the co-curricular activities are governed by the different committees and societies. College organizes alumni meet every year. Alumnus of college is serving at national and international levels. They are actual indicators of quality education that is imparted by the college. The way of working of the management and the teachers are very innovative and appreciable, they do all the things for the welfare of the students and society.

College has an excellent infrastructure including library, computer labs, an auditorium, conference room, medical room, and canteen. The entire campus is wi-fi enabled. It has open gymnasium and amphitheater which provide an atmosphere to facilitate a holistic development and equip all students with the necessary life skills.

I sincerely wish all students benefit from the opportunities being provided by the college to make their academic journey meaningful. I earnestly hope and trust that, the esteemed academicians, administrative staff and students will work with sincerity, honesty and dedication and thereby contribute to make this world a better place to live in.

Chairperson

Manita Sharma

प्रोफेसर मनीता शर्मा / Professor Manita Sharma
प्रोफेसर-प्रधान / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

5

N.Rath

**I.Q.A.C.
Cordinator**
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]

**NAAC
Cordinator**
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

सम्पादकीय

एक पत्र छात्राओं के नाम

प्रिय छात्राओं,



अदिति लिपि का ये वार्षिक अंक प्रकाशित होकर आपके पास आ रहा है। इसके माध्यम से आप सबको पत्र लिखने की आवश्यकता अनुभव हुई। आपमें से कुछ से तो मैं प्रतिदिन सीधे संवाद करती हूँ। किन्तु अन्य अनेक छात्राओं से ये संवाद की स्थिति नहीं है अतः मैं आप सबके लिए एक खुला पत्र लिख रही हूँ। स्थानीय भाषा में कहूँ तो चिट्ठी के माध्यम से आप सबको संबोधित कर रही हूँ। चिट्ठी मनोभावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भारत के प्रधानमंत्री जी के "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के नारे को वास्तव में आप सब अपनी उन्नत सोच और निर्णय से सफल बनाएगी। आप भारत राष्ट्र का वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। इसलिए राष्ट्र और समाज के निर्माण का दायित्व भी आपके स्वाभिमान की कंधों पर है। प्रिय छात्राओं इस शैक्षिक सत्र के दौरान प्रकाशित होने वाली अदिति लिपि के माध्यम से आपकी रचनाएँ और उनमें अंतर्निहित विचार अन्य छात्राओं एवं उनके परिवारों तक पहुंचेंगे। आपका प्रयास सराहनीय है, यूँ तो और अधिक बेहतर की संभावना भी बनी हुई है। आपको श्रेष्ठ लेखन के कुछ सूत्र देना चाहती हूँ। शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। कारण उससे ध्वनित व प्रचारित - प्रसारित विचारों के प्रवाह का प्रभाव अनंत है। इसलिए कहा गया है कि धनुष से निकला तीर और मुख से निकली बात अपना प्रभाव अवश्य दिखती हैं। इसलिए मुख से उच्चारण करते हुए और लेखन कार्य करते हुए शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लेखकीय कार्य भी वास्तव में बौद्धिक विलास मात्र नहीं है और न ही केवल अन्तर्मन की अभिव्यक्ति। वास्तविक अर्थ में साहित्य का प्रधान लक्ष्य जीवन मूल्यों का उत्थान एवं सामाजिक कल्याण अथवा लोकमंगल है। आपकी लिखी रचनाएँ लोक की पथ प्रदर्शक बने, शांति व राष्ट्रीय व्यवस्था लाने का माध्यम बने और समाज के लिए भी उपयोगी हो ऐसी रचनाओं का लेखन आपकी कलम से होना मेरा अभिष्ट है। रचनाकारों की आज कोई कमी नहीं है किन्तु आप सबसे अलग और श्रेष्ठ रचनाकार बने इसके लिए आवश्यक है की आपकी रचनाओं में देश, समाज और व्यक्ति हित के प्रश्न अपनी समस्त चिंतना के साथ, अपने समाधान के साथ जूझते हुए, तर्क करते हुए उपस्थित होने चाहिए। साहित्य का मूल प्रयोजन मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है किन्तु संवेदना की अभिव्यक्ति मात्र आपका उद्देश्य नहीं है आपको अरस्तु के विरेचन सिद्धांत से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिसके अनुसार मानव मनोवृत्ति को परिष्कृत कर उन्हें समाज उपयोगी बनाकर ही अपनी रचना में प्रवेश कराना चाहिए अन्यथा वह केवल क्रोध, मोह लोभ आदि का वर्णन मात्र रह

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

6
N.Ratu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

जाएगा पाठक से तादात्म्य नहीं हो पाएगा। आपका लेखन समाज के लिए सकारात्मक दिशा बोध और चिंतन प्रदान करने वाला होना चाहिए। साथ ही भाषाई समृद्धि और भाषागत शुद्धता पर भी आपका ध्यान अवश्य रहना चाहिए क्योंकि भाषा के माध्यम से ही आपके विचार रचना में पाठकों तक पहुँचते हैं और भाषिक संस्कृति अपने सम्पूर्ण कलेवर के साथ रचना में उपस्थित होती है।

प्रिय छात्राओं आपकी रचनाओं में राष्ट्र की आवश्यकताएं, शाश्वत जीवन मूल्य, नैतिक आचरण, समाज से जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को केन्द्रीय अभिव्यक्ति मिले और आपाधापी भरे सांसारिक जीवन के बीच सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया का संदेश आपकी रचनाओं से पाठक वृंद को प्राप्त होना ही श्रेयस्कर है। समूह का सह अस्तित्व जब मूल्यों, परम्पराओं, विचार, सहजीवन तथा इतिहास के आधार पर होता है तभी एक समरस समाज अस्तित्व में आता है इसलिए जब -जब मनुष्य और मानवता का विचार होता है तब - तब राष्ट्र व संस्कृति ही उसका आधार होती है। इनके समावेश से ही देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, सांप्रदायिकता, धर्मांतरण आदि समस्याओं को भी समूल नष्ट किया जा सकेगा।

प्रिय छात्राओं अदिति लिपि आप सबको समर्पित। साहित्य का प्रयोजन सदैव लोकमंगल ही रहा है। शब्द ब्रह्म की अर्वाचीन सत्ता के महत्व को, उसके उपयोग और प्रभाव को भी हमें सदैव स्मरण रखना है विशेषकर रचनाओं के सृजन में।

नीलम राठी

Mamta Sharma

प्रोफेसर अज्ञान शर्मा/Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल/Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi
बावणा, दिल्ली-110029/Bawana, Delhi-110039

7
N.Rath
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

MAGAZINE COMMITTEE



Dr. Neelam Rathi
Convener



Dr. Manju
Co-Convener



Dr. Manju Rani
Member



Dr. Archana Tyagi
Member



Dr. Sheetal Sharma
Member



Dr. Manju Goel
Member



Dr. Asha Devi
Member



Dr. Parul Goel
Member

Manita Sharma

प्रोफेसर वरिष्ठ / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
बौध्द विस्तारण / University of Delhi
बौध्द, केए-110039 / Bawana, Delhi-110039

Manita Sharma
I.Q.A.C.
Coordinator

Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

Manita Sharma
NAAC
Coordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

English Section

Editors Name

Dr. Manju (Department of English)

Dr. Manju Goel (Department of Social Work)

Dr. Parul Goel (Department of Commerce)

Hindi Section

Editors Name

Dr. Neelam Rathi (Department of Hindi)

Dr. Manju Rani (Department of Hindi)

Dr. Asha Devi (Department of Hindi)

Sanskrit Section

Editors Name

Dr. Archana Tyagi (Department of Sanskrit)

Balishth Tomar (Department of Sanskrit)

Photo Gallery

Dr. Sheetal Sharma (Department of Geography)

Student Editors

Ms. Tanya Jain (B. A. (H) Social Work – IInd Year)

प्रज्ञा, शिखा, (बी ए (आनर्स) हिन्दी पत्रकारिता एवं जनसंचार – द्वितीय वर्ष)

काजल कुमारी (बी ए तृतीय वर्ष)

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल-प्रधान / Professor-Principal
अदिति माहाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

9

Nirala
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

English Section

Mamta Sharma

10

प्रोफेसर मान्दा शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिन्सिपल / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
रक्षा विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

N.Ratwani
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

GO AWAY CORONAVIRUS

Corona spreading everywhere
Don't allow people to come so near
Don't be so panic, it's a high time
All you need to be okay and fine
There are so many people around
Be aware from their germs left in the air and ground
Everyone missing their tours and going out
It makes everyone angry and shout
Is this corona's beginning or the end?
About this we have never even pretend
Keep calm and don't panic
We can come together and work together in this growing pandemic
Staying at home makes students sad
Now it's made them realise
Schools and colleges are not so bad
Everyone missing their work and friends
We don't know when will it end?
Now this current situation making us sad
I hope soon it will get over and we will be glad

Arpita Dubey
Roll No-2004045
B. A. (H) Social work, 1st year

Manita Sharma

11

प्रोफेसर मनीता शर्मा / Professor Manita Sharma
विद्यालय-प्रधान / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
एनएच कोसलपुर / University of Delhi
बवणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

NRatu
I.Q.A.C. -
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

LIFE STILL HAS A MEANING

If there is a future there is a time for mending- Time to see your troubles coming to an ending. Life is never hopeless however great your sorrow- If you're looking forward to a new tomorrow.

If there is time for wishing then there is a time for hoping- When through doubt and darkness you are blindly groping. Though the heart be heavy and hurt you may feeling- If there is time for praying there is a time for healing.

So if through your window there is a new day breaking- Thank God for the promise though mind and soul be aching. If with harvest over there is grain enough for gleaning- There is a now tomorrow and life still has a meaning.

Aditi Tyagi

Roll No.-2004005

B.A. (H) Social Work 1st Year

THE WAKE-UP CALL

The wake-up call is a call that will set your potential on fire all of a sudden. This is something which you gonna feel within yourself and will see too because this 'WAKE-UP CALL' will never go without paying anything to you. It will make you feel that change within yourself, those turning habits in yourself, that fire in your self – believe and those hopeful tracks on which you gonna run so damn fast and through which you will visit your each and every desirable destination one by one...

But, as this world is surviving on the concept of "GIVE AND TAKE" similarly this "WAKE-UP CALL" too ask for something in return. And that something is undying faith in yourself, in your capabilities and in your hopes that no matter what you won't get demoralized because of your flows infect you gonna flaunt them each and every time without any hesitation. Nobody is perfect but if they are used correctly in the place and in the right way then they is no way to not be stunned by their "CHARM"

Mamta Sharma

प्रोफेसर शर्मला शर्मा/Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान/Professor-Principal
एडिटी महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
श्री श्री वेदविद्यालय/University of Delhi
बाना, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

12
N.Ratu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

(Signature)
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

This world is worried but wonderful too as there is always more occurring than what actually meets the eye. So, you can never estimate what's actually going around. Will it be relevant to you or not? That's why you must know what actually belongs to you and the day you will get to know about this just make those desires your goal, set a deadline and work so damn hard until unless your "STRUGGLE" turns into your "SUCCESS" because somewhere I found this written that "A GOAL WITHOUT A DEADLINE IS JUST A WISH". So, just make sure whatever you are doing or will be doing won't turn into an unexpected disappointment in your life.

Last but not the least... Every event has a purpose and every setback as it is lessons. Failures are essential to personal expansion it brings inner growth and a whole host of psychic rewards, a real generosity to words the future consists in giving all to what is present. So, make your every goal counted.

AMISHA SINGH
ROLL NO. 1902037
B.A GEOGRAPHY (H) 2nd year

Positive Attitude



Positive attitude is the result of positive thinking, positive ideas and coming with new solution. The way you think, day in and day out, effects all aspects of your life.

Manita Sharma

प्रोफेसर एम प्रो/Professor Manita Sharma
प्रिंसिपल/Principale-Principal
आदि महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
रेव. इन्डियन/University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

13

N.Ravi
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

Learning to listen to your 'internal voice' will help you recognize your thought patterns and also teach that how we handle our stressful situation of daily living. Many people have found that, when they tune into their internal voice, much of it is negative Thoughts like, "I could never do that" and "what if I fail"? Can seriously impact the way you behave. Develop your positive attitude! Here are some ways to help you develop a more positive attitude: - listen to internal voice. Divide one or more sheets of paper into two columns. For a few days, write down in the left column all the negative thoughts that come into your mind. Rewrite each thought in a positive way in the second column. Practice doing this in your mind until it becomes a habit. For e.g.:- "I'll never get this finished by the end of the day!" could become, "I'll probably get most of this finished by the end of the day!" Learn to communicate. Not saying the things we feel can lead to sense of frustration, hurt, anger or anxiety.

Positive thinking increase life span, it decrease rates of depression, lower level of distress. Positive thinking leads a man to success. One who think that he can achieve the things will put his best to achieve will not find any problem in the path of success and one day he will win positively. Self-confidence, determination, perseverance and hard work are key to success. Dedication, devotion to the task and positive thinking with determination have been important factor of success. Life is a battle, one has to fight it fearlessly. Fight with confidence, positive attitude with determined and concentrated effort lead to the surest path of success. Your biggest asset are your enthusiasm that enrich your positive thinking. One who always think positively even in adverse circumstances wins.

Positive thinking is easier to achieve success, improve relationships, have better health, and enjoy happiness, satisfaction and inner peace.

Prerna Priya

2004035

B. A. (H) Social Work 1st Year

Manita Sharma

प्रोफेसर मनीता शर्मा / Professor Manita Sharma
प्रिंसिपल-प्रधान / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
सिटी विवेकानंद / University of Delhi
बाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

14

N.Rath

**I.Q.A.C. —
Cordinator**
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

**NAAC
Cordinator**
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

Women

We are women, not less than men
Are we? This question is a mystery like
Who arrived first egg or hen?

We bleed every month for one week.
Then a question arises, are we weak?

We suffer the pain of breaking 37 bones
Then a question arises are we strong?
And in answer every one "mourns".

We perform different stages, in different ages.
From a girl to wife
We serve our whole life.

We can do all the different works,
Right from pilot to the clerks.
And if we try to fulfill our aim,
Then a question arises,
Do we have shame?

We should have our life in curtains,
But we should paint everyone's
Life with beautiful paints
As said by some saints.

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
बवणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

15

N.Rath
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

And while serving others
We can't faint.

But from now we'll stand apart,
By following our own heart
We'll frame a film, play our own part
We'll make the world beautiful
By some graceful art.
We'll play, we'll dance, we'll sing, we'll scream.
But, by becoming little
Mean.

Dolly Rohilla

2004003

B.A. (H) Social Work (1st year)

My Father

My Father is my hero. He is my first love. He is my role model. My Father inspire me every time at every moment. When I feel alone he is always with me. He loves me a lot. Everyone search love in boy/girl but I find that love in my father. I love my father as much as I love myself or even more than that. Whenever I get chance I always pray to god that, stay my father happy and help me to full-fill all my father need. I want to become an IAS/IPS officer not only because it's my dream or I get inspirational when I see an officer but also because of my father. My father is a Police Officer whenever I see him I feel so proud that he serve for our Country. I want that, one day my father look at me and say that "That's my Daughter ". I am

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
अध्यापिका / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
एनएच रोड / University of Delhi
बॉवना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

16

N.Ratu

I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

waiting for that moment. And I believe that one day I will do that not only for me but also for my father. My father loves me more than anyone. The bond between me and my father is just like a friend. He guide me every time. He always says that "You will do it".

"I Love You Papa".

Eti

Roll No-2004052

B.A. (H.) Social Work 1st Year

Environmental Sustainability of Clothing Brands

Mahatma Gandhi said that there is no beauty in the finest cloth if it makes hunger and unhappiness. It is a less known fact that the fashion industry is responsible for 1/10 of carbon emissions and is the second-largest consumer of the world's water supply. When we talk about a sustainable future, our role to play in it as youth and changing the world, we forget that awareness and small changes in our daily lives can bring about a huge impact. There is an exponential growth in the production of clothes and its sale in the market. Besides this, they are not used up to their complete potential and are discarded by fashion brands with changing trends.

The cloth is made up of either natural fibers like cotton or synthetic fibers like nylon or polyester. Synthetic clothing when discarded into the water bodies and dumping grounds act as sources of water and land pollution respectively. The fibers break up to form micro plastics which are consumed by fish and by humans through bio magnification. On land, the textile clothing causes leaching and if burnt, releases

17

Mamta Sharma
प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
बाना, रोड-110039 / Bawana, Delhi-110039

N.Ratu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

Aditi
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

toxic chemicals in the atmosphere resulting in air pollution and greenhouse gas emissions. Natural fibers require tons of water and pesticides due to which they too contribute to agricultural pollution.

Processing of clothing in the textile industry and similar processes and accessories used to enhance the appeal of clothes are not eco-friendly either. Even for laundry, usage of dry cleaning methods or surfers and detergents result in considerable environmental damage. Fast fashion is a business model that promotes rapid production of cheap clothing to meet the most recent fashion trends. Major brands like Zara, Forever 21, ASOS and United Colours of Benetton work on this principle to increase profits. As Livia Firth- Founder and Creative Director of Eco-Age says, "The fast-fashion business model is finite because the natural resources it uses will get scarcer and scarcer.

If you want your company to be successful fifteen years from now, you have to address these issues today, even if your profits are a lot less as a result". UN Sustainable development goal #12, Responsible Consumption and Production also suggests that as responsible customers, we should be aware of facts to make responsible decisions. So what is Sustainable Fashion? It's a combination of two words, ethics and aesthetics.

Sustainable fashion gives us an opportunity to actually incorporate change in our lives in an extremely simple yet effective way. Sustainable fashion is an emerging form of clothing which incorporates ecological, social and financial aspects, ensuring maximum profits while considering the environmental hazards and the

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
महाराज-महाराज / Professor-Principal
आई.आई.टी. मनीषा / Aditi Mahavidyalaya
राज. विश्वविद्यालय / University of Delhi
बाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

18

N.Rath
I.Q.A.C. -
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

working conditions of those in the fashion industry. We should also consider that there is no such thing as a 100% eco-friendly piece of clothing because all clothing requires water and energy but minimising the hazardous impacts on the environment can also result in a sustainable future.

Certain tricks to reduce environmental damage via clothing in the present scenario are donating clothes to charities, NGOs or thrift shops for reuse or resale and to buy second-hand clothing, which will also be easier on our pocket. Ancient traditions of giving hand-me downs to other people or using old clothes as dusters are good methods of reusing clothes. Most textiles can be reused. Newer technologies need to be developed in the fashion industry which can help produce eco-friendly fibers and textiles or can introduce methods to productively use recycled clothes, for example, recycled synthetic polymer can be produced using plastic bottles. The clothes should be of good quality with strong fiber and well dyed so they can remain in use for a longer period of time.

These days, chemical methods of recycling are being used to break down the fiber at the molecular level and then repolymerize the feedstock. Upcycling of old clothes to produce new trendy designs is yet another emerging array in the field of fashion. Not only does it provide the consumer with interesting and cheap fashion choices, it generates good profits for the producer while acting as an effective way of waste management. Vivienne Westwood said, "Buy less. Choose well. Make it last" and that's exactly what sensible fashion choices mean. There are a few Indian brands who have gained popularity among the masses while remaining ethical and eco-friendly. Fab India, Good Earth, Nicobar and Khadi are a few such Indian brands

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल / Professor-Principal
आदि महविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
एनएसी, बवणा / University of Delhi
बवणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

N.Rath
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

which provide workers with human rights and working conditions, promote local handicraft, hence boosting the economy. They use natural dyes, eco-friendly fabrics, sustainable energy resources, guard animal rights and follow zero wastage policy.

Their collection includes bamboo dresses, organic cotton and tropically inspired eco-friendly homeware. Materials like hemp, silk, soy, jute are used widely. Hence, it is safe to say that the market provides us with sufficient alternatives to make sensible fashion choices but it is in our hands to incorporate basic fundamentals to prolong the use of clothes, their sustainable management after use and the inter-dependence of clothing brands to the consumers to establish sustainable fashion. There are innumerable changes that can be made in the industry and we should move forward hand-in-hand to save our mother Earth from irreversible damage.

Harshita
Roll No.-1902044
B.A. (H) Geography 2nd year

The generation gap

Everyone wants to live and behave in his own way and no one wants to compromise with his or her values and views. There has always been a difference in attitude or lack of understanding between the younger and older generations. This attitude has augmented the generation gap and it is becoming wider day-by-day.

"Each generation imagines itself to be more intelligent than the one that went before it and wiser than the one that comes after it."

Manita Sharma

प्रोफेसर मनीषा शर्मा / Professor Manita Sharma
प्रोफेसर-अधीन / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

20

NRatu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

Elaboration to this quote is that one generation believes the following generation is missing essential values and belief, and is becoming less productive over time. Psychologists believe that most young people experience conflict during their adolescence. They are neither children anymore nor yet adults, but individuals, who are desperately searching for self-identity. As they grow up, they adopt values that differ from those held by their parents and develop an unfavourable attitude towards the adult world.

In earlier times, two or three generations lived in the same lifestyle and environment as the development was very slow. But today, nearest past is very much outdated and the world is more advanced each day. Parents do not even know many of the modern technologies and equipment children use. Conflicts actually arise because young people feel that they have a right to be independent. They look at parents as 'enemies' who do not let them live the way they want like by staying out late, wearing fashionable clothes or choosing their own friends. What makes things even worse is that teenagers suffer a sense of incapability and rage as they realise that financially they still depend on their parents.

JYOTI

Roll No.-1906068

B.COM (H) 2nd Year

Mamta Sharma

21

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिन्सिपल-प्रधान / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

N.Rath
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

DESTINY.....

I ask myself all the time,
It is all a coincidence?
Or was it all destined?
For nothing has gone as I planned,
But have found way better things
Than I thought I would have
Achieved in this lifetime.
I thought to myself one day,
Have I planned all of this?
Long before I entered this plane.
And this though paved a way,
For a great realisation, that life is nothing
But just a play.
It is our human psyche,
Which wants to control everything,
But it is only our consciousness,
Which knows the right way.
Go with the flow, they say
For nothing would go as you planned or as you say.
Don't waste your time in planning everything,
Coz the truth is we can't control anything.

Uncertainty is the beauty of life,
Look around and cherish all that
You have at this time.

Manita Sharma

Coz you never know what's on the other side.
For it is only the principal of life,
That nothing is, was or ever will be
Permanent in your whole life.

Khushi Sagar
Roll No.-2004014
B.A. (H) Social Work 1st Year

POWER OF YOUTH

When united is our youth
Every hurdle, every obstacle
Every path becomes smooth

When in a chorus it speaks
All ill-fated voices and will
Hide away with fearful squeaks

When it steps out in unison
Every stone paves the way
For the forthcoming perfection

When it joins hand together
Infinite sky bends over to give
Flying ceaselessly new feather

May the youth now memorize
Its real power on innovation
To evolve, create and surprise.

Kisha Prakash
Roll No.-2004015
B.A. (H) Social Work 1st year

Importance of Newspaper in Students life

A newspaper is a piece of material which provide knowledge of all the latest news and events happening in this world. Reading newspaper is a very useful activity to start our day. This gives us a brief knowledge into the real happenings in the world. For both adults and children, newspaper having various interesting columns like political news, tech. news, puzzle games etc.

There are several advantages of reading newspaper in our life which cannot be under estimated. Newspaper is a treasure house of information that increases its wealth every day before coming to our door step. Every morning we get to read newspaper. With newspaper reading, we perpetually enhance our vocabulary, reading skills, knowledge and a lots more.

Here are some benefits of reading newspaper in the students' life;

1. Strengthen Reading and writing skill.
2. Provide entertainment and sports news.
3. Best source of general knowledge life.
4. Get up to date with political news.

Maunika Sharma
प्रोफेसर मनीषा शर्मा / Professor Manisha Sharma
प्रधान-अधीन / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

24
~Rishi~
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

A
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

5. Useful ideas about research and projects.

Newspaper reading as a habit can be a tricky activity to those who don't know how to read. While thinking to learn a new language, there's no other better option than to take a help of Newspaper as it comes in different languages in different cities according to the mother tongue of the people living there.

Reading newspaper daily is really a good habit that provides a great sense of educational value. It carries a lot of information about the happening in the world, what all is doing on in the country, town, nearby areas. In fact we get all necessary related information through the means of Newspaper.

Megha

Roll No.-1906003

B.Com. (H) 2nd year

Menstruation: a tale of taboo and stigma

Menstruation also known as "periods", "monthlies", "that time of the month" is the regular discharge of blood and mucus from the inner lining of the uterus through the vagina. Multiple euphemisms and limited knowledge have perpetuated the idea that menstruation is something to be ashamed of. Since the first menstruating hominids to those in the 21st century, periods have always been a source of humiliation, discomfort and oppression.

The fact that a natural human process is subjected to so much hate and disgust is appalling yet not surprising. Women oriented discussions have rarely been provided a platform since ancient times. The lack of knowledge, perception and understanding

Mamta Sharma

प्रोफेसर शर्मिता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
विशील विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

²⁵
Rathi
I.Q.A.C. -
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

has created an invisible wall of lies, myths and misunderstanding which makes it difficult for society to empathize with women and their issues.

While tracing the roots of menstruation various researchers argued on how the stigma around it originated. Multiple theories were formulated, prominent ones being - the early humans found menstrual blood to be soiling, this was also a form of natural population control and the reproductive envy faced by men made them talk ill about menstruation. Even in present times, media and advertising companies are scared of showing menstruation blood in the advertisement of "menstruation hygiene products". Ironic, disgusting, yet true.

The otherwise harmless process when combined with patriarchy, misconceptions and rudimentary cultural norms is responsible for the discrimination against menstruating women. In many third world countries menstruating women are forbidden entry in houses, kitchen, and temples. Nearly 12% girls in India drop out of school when they get their first period. The lack of sanitation and facilities combined with shame and guilt affects the physical and mental health of women and young girls. Some women cannot even access hygiene products due to its high cost and unavailability in their areas. This discrimination not only impacts their mental well-being but also degrades their social and economic standard. The lack of knowledge on period hygiene is responsible for endometriosis, infertility, urinary tract infections in the majority of underprivileged women.

The shame around periods is not only ancient but also global. Women in developed and developing countries go through similar humiliation in varying degrees. Hiding the pads, the red stain on the uniform, silencing the muffling of pads in a public washroom is something perpetuated in women by every society. In the year 2020, in an institute in Gujarat, 70 women were forced to strip in front of their principal to prove that they were not menstruating and had not broken the "menstruation code"

Mamta Sharma

26

प्रोफेसर मानिता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान / Professor-Principal
आदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
भारतीय विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

N.Rath
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

of the hostel. Up till 2005, Nepalese women had to spend her "those days" in menstruation huts. In South Africa a menstruating girl is secluded from her friends and has to hide under a blanket till sunset. How are women supposed to feel safe, secure, confident and dignified when such stupidity is normalised?

It is the need of the hour to provide correct, unfiltered and honest information regarding periods at the right age, at the right time and by the right people. Sanitary pads should be distributed by the government to women below the poverty line. Feminine hygiene products should be cheaper and more accessible even in the remotest corners. Women should be taught self-love, confidence and acceptance of their womanhood. Everybody is different and so is the pain, tolerance and flow during their periods. Each woman lives her own journey and her versions of womanhood therefore it is important to be kind and respectful to yourself and others.

"Periods are natural, period shaming is not"

Mehak
Roll No.-1902001
B.A. (H) Geography 2nd year

Why and how to travel free?

"The world is a book and those who do not travel read only one page."
— St. Augustine

Why we should travel?

You all must be wondering, why I should waste money and time on traveling. And if I wish to travel, so how can I travel for free or with less money.

Mamta Sharma

27

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

Nrati
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

Let's talk about why to travel. We all think that we are invincible and we assume that we are gonna live forever but far too often life reminds us that is not the case. You know we all have plans and goals in life but sometimes life takes us down a different road and we need to adapt. So life is short take vaccinations. We need to take off time from school and work to recharge our batteries.

There's a strong correlation between travel and happiness and actually more productive than those who's just been toiling away in their cubicle. The advantage of traveling is seeing the world and diversity in a new light in the polarized world that we live in. I think travel is essential for breaking down the walls and preconceived notions that we have about other countries and other cultures. So prioritize travel now why procrastinate why wait until you are old and grey. Do it now. There is no reason not to. Travel opens us up to the wonders of our world.

In so many ways, it helps you appreciate nature. When you are traveling you open up to new things. A great thing about travel is that it connects you with people. It is people that really make your experience vital. It is a form of escape. It could be a business opportunity and obligation the way to connect with cultures and languages. We are not getting any younger and while the world is not going anywhere, we most certainly are. People would rather help you than hurt you. Locals take great pride in showing us, the traveler, and their world. Whatever the culture you would not believe the lengths of hospitality that people go through. It doesn't mean much if you are not connecting and you are not sharing with the right people because people we meet on a journey out there, on our journey in here, shape the world, shape the way we look at everything.

We have so much common with people around the world than you may think because ultimately we all want the same things, which is why at the root of our spiritual comfort zone, the layer closest to our souls, we are all looking for fulfillment. We are afraid to leave the safety of our routine to pursue something greater.

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
रेवडी विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

28

N.Rishi
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

How to travel for free or with minimum expenses?

You might think I cannot afford it but I am sure that there's plenty of ways that you could cut costs. Actually, all the expenses while you are traveling fall into three major categories. First is transportation, the other one is accommodation and at last is everything else food, drinks and so on. If you minimize those three expenses, it can actually be cheaper to travel than living in your own city.

Hitchhiking apart from free, apart from being fast it allows to have an adventure from your starting point to final point. Talk with the driver because that is the only way you can repay them, they would like to listen to an interesting story, if you have one. There are other alternatives to transportation. One of them is walking, another way is cycling, it is not may be completely free, because you have to buy the bicycle and eventually fix it but it is much cheaper than the conventional methods of transportation and the last one is actually working INR exchange for transportation.

For accommodation, Couchsurfing can be used. Couchsurfing is an internet website that allows you to host travellers in your own home, and at the same time, it allows you to stay in other people's homes while you are traveling yourself. It is free as well as it allows you to have a different perspective of the destination. You are not destined to stay in your hotel room or take tourist tours. You just hang out with your host he takes you on places that you would probably never visit by yourself. But also there are some other alternatives, one of them is camping, you have your tent, you can sleep almost everywhere you want or you can. You can also sleep in parks with a sleeping bag and mattress. The last one when it comes to accommodation is volunteering. There are a lot of opportunities all around the world that offer you to work in exchange for accommodation, sometimes even food.

When it comes to all the other expenses, one of them is the food you can buy food in supermarkets, which is the cheapest way and just eat on the streets. You can

Mamta Sharma

also cook with your host, which can be a pretty unique experience. Another thing is dumpster diving, maybe over 40-50% of the food that is being produced is being thrown away and a lot of people have a problem with that, so they go to supermarket bins after the closing hours and just take all the food that is not going to be sold the day after. This is how you can travel really cheaply.

Now, we have answered the most important question related to traveling. That's how to travel free. Now the only thing that's stopping you is fear. People are kind of afraid of leaving because they don't know what's going to wait for them once they come back. But have the courage to explore the new world with a new perspective. So, next time you google the cheapest place to travel instead of search for the best places to travel because you know how to travel free.

Pavni Kandpal

Roll No.-1904057

B.A. (H) Social Work 2nd year

I am Woman

I am woman

And I am playing lots of role in my daily life

Sometimes daughter, sister, wife and mother

I enjoy my work to do for parents, for husband, for children

I hide my pain with my smile

No I am not complaining about this

I just want to share all what I feel like

Sometimes I fought with my parents, husband, and shout on child

I shout high that I want to be rise and shine but,

They laugh at me and say who cares of her crying

Mamta Sharma

30

प्रोफेसर अमर शर्मा/Professor Mamta Sharma
ऑनलाइन-प्रिंसिपल /Principle-Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय /University of Delhi
बावना, दिल्ली-110029/Bawana, Delhi-110039

N.Ravi
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

I am that women who enjoyed work to do for them
But now I want some respect
At this time it's enough now I want to go to find myself
I don't want to be a butterfly but yes I want to see the beautiful sky
I am that sun who burns in their life but they give us shine light, yes I am happy that
I am women

Priya
B.A. (H) Social Work 2nd Year
Roll no-1904050

ATAL TUNNEL-World's longest highway tunnel

When you live in the hilly area; road blockades, landslides avalanches are yours pals. You have to face them. In this case the biggest problem is means of transport or having safe path. In months of winter, the place Rohtang Pass is all over covered with snow. Here comes the saviour "ATAL TUNNEL". It is the first step towards providing all your connectivity to the Ladakh. It has the potential to link Ladakh to Manali and Chandigarh throughout the year because it Bypasses Rohtang Pass. This is the first achievement in the pocket of Atal Tunnel. It has many more to show. Before all that let's speak into the secret of its unique name. It has been named after former Prime Minister of India Atal Bihari Vajpayee. Basically it is a highway tunnel built under Rohtang Pass in the eastern Pir Panjal range of the Himalaya one the Leh-Manali highway in Himachal Pradesh. At a length of 9.02 Kms, it is the longest tunnel above 10,000 feet in the world. The tunnel reduces the travel time and overall distance Manali and Keylong on the way to Leh. The route which previously went through Gramphu was 116 Kms long and took 5-6 hours in good condition whereas

Mamta Sharma
प्रोफेसर रजनी शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
एन.डी. कॉलेज / University of Delhi
बावणा, दिल्ली-110029 / Bawana, Delhi-110029

31
N.Rastogi
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

A
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

the new route in the tunnel brings down to the 71 Kms and total time 2 hours. A reduction of 3-4 hours when compared to earlier route. This tunnel was inaugurated by our Prime Minister Sh. Narendra Modi on 3rd October 2020. But it has very long story to tell. In 1960, Pt. Jawaharlal Nehru discussed a rope way to Rohtang Pass with local tribes. Almost 20 years after, on 3rd June 2020. This project was announced by Atal Bihari Vajpayee our then prime minister. As it is said everything in this world has its very own journey like that Atal Tunnel took 20years to be what it is now. Better late than never, now it is the world longest highway tunnel. Having horseshoe shape it has width of 10 meters. It has pollution sensors, fire hydrants at specific locations, CCTV camera which are connected to two monitors' rooms on both ends of the tunnel. It has loudspeakers at regular intervals for important announcements. Basically it has everything to be the safest to travel. May be that's why it costs whopping 3,200 crore to make this. But it is worth it. Atal Tunnel is an engineering marvel in itself and saviour for the local residents too.

Ritika Rosy
Roll No.-2004046
B.A. (H) Social Work 1st Year

Solving the Global Water Crisis in 7 minutes

There are 1.2 billion people or 1 in 7 across the world the reality is much harsher than either you or I could relate to. These are the people spending their day looking for water and then going to bed one drink thinking where the next cup of water would come from and you know what is the crazy part is in coming 9 years there will be 8 billion people living on this planet and over 5 billion people will be living in stress water conditions. The reality is much harsher even in today's scenario preferably for a female, it could be a mother, a sister, a daughter, who wakes up at

Mamta Sharma

32

प्रोफेसर मन्ता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल-बवाना / Professor-Principal
अदिती महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

N. Rector
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

6am before the sun gets too hot, she starts walking at 9am, even 3 hours later she was still walking at 11am she finally reaches to a stream of river, fills up two jerry cans of water, rests for about 20 minutes and again begins her journey back home, where her whole family is waiting for the water. At 1pm she remember sun being so hot and the warm sand passing through her sandals was proof of it. At 3:45pm, she finally got home and at 05:30pm boys in the family taught what they learned in school that day. At 8:00pm she went to bed ready to get up and do it all over again the next day. My brothers and sisters this is a true story of a girl called Ayesha 13 years old born in Ethiopia and beyond spending most of the day collecting water every times her and her family take a sip of water that is contaminated, run the risk of contacting everything that is cholera, typhoid E coli and many more.

When we first hear about the water crisis or the solar water project we may think it just about water but water in just a beginning because through water we deliver a healthier future, through water we can replace 4-5 hours walking with time in spent in school and it is through water that we empower the countless women and children who time and time again are tasked with collecting water.

A furious liberal Arts student with a passion to solve the problem what really does or what steps does he take to solve the problem and his name is Hamza Farrukh. His research proposal turns into a ground application and he got 10,000 dollars from Catherine Davin's foundation. He arrived in Pakistan assembled a team with a mission to come up with a way of providing water to communities to like those of Aisha's. Once were the water sources is distant contaminated and that also lacks basic infrastructure including lack of electricity. So they turned the most abundant natural resource the Sun they serve existing technology including solar panels, water filtration units, water pumps and re purpose them in a way that now we could use the solar energy to extract water from deep underground aquifers which

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिन्सिपल / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

33

Ravi
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

A
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

are below surface pockets of water. The resulting solution can provide 2000 people clean water every day and for up to 25 years. And that work has grown from 1 community to 13 communities across Pakistan and in two countries, i.e., South Sudan and Bangladesh. Their work has grown into international water charity with an incredible team of our 100 volunteers spread across 3 different continents and they call themselves BONDH-E-SHAMS on solar water project. The world BONDH-E-SHAMS literally meaning water from the sun and the countless recognition they have received so far are due to hard work of this team.

The skilful and innovative design that can save millions of life over the years to come. They have thought outside the box by quit literally thinking of a large metal box and the process is as follows:-

They have combined solar capabilities with smart electro mechanics and enclosed their technology in the large metal box, the solar panels create the electricity which powers a variable frequency drive which is a mechanism to optimize the energy usage is used to extract water from underground that water is then filtered using 0.1 micron ultra filtration, the hollow fiber is of membranes contained u-shaped micro poles that allow the water to pass through trapping 99.9999 percent of all bacteria including E coli and typhoid and once mentioned before.

Amazing part is it literally takes 7 minutes to get the solar box deployed and with a flip of a button we can solve a decade long crises in minutes. UN recommends that one person drink 8 cups of water every day so with this solution 16,000 cups of water generated every day within a year 365 days multiplied by 16000 that's a staggering 5.8 million cups of water per year. So, with 10000 dollars we can provide a clean cup of water to every single person in the 5 borrows in city like Delhi and estimated 1.45 million of cups of water in 25 years. They work with people of south Sudan they lack water but they also lack infrastructure hence

Mamta Sharma

प्रोफेसर माता शर्मा/Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल-प्रधान/Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
स्ट्रीट शाहिदपुरा/University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

34

Nraty
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039



NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

perfectly suited to benefit long lasting durable, renewable way of getting water by also increasing radical transparency.

This is where we I need your help in fighting for a world where access to clean water is a right and not a luxury afforded only to a few and I am talking particularly to the folks of my generation let's face it we have been repeatedly failed and the innovative solutions like BONDH-E-SHAMS although powerful are not meant as a replacement for a much broader comprehensive internationally coordinated water management response.

If you truly believe in safer future generation to come then your responsibility has to be proportional to the privileged we enjoy. And the quickest and easiest thing are can do is starting today is to become resourceful within your own communities and the networks we have. And the people who are working in BONDH-E-SHAMS have been instrumental and crucial and pushing us and making sure that we day in day out helping change lives with meaningful technologies.

“So the next time you open the tap of clean water ask yourself how will you turn this privilege in to purpose”.

Swaliha Sajeem
Roll No.-1902002
B.A. (H) Geography 2nd Year

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रधान-प्राध्यापिका / Professor-Principal
आदिती महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

35

N.Rao
I.Q.A.C. —
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

Acid Attack - An Evil

Acid attack is one among those crimes which are done to women and increasing day by day. India has the highest number of acid attacks in the world, but the worst conviction rates. As is often the case with other crimes against women acid attacks are treated with official apathy and societal indifference. The victims are usually women between the ages of 18 and 35 years, and the attack often occurs as revenge for rejecting a marriage proposal or sexual advances, showing the peculiar mindset of male entitlement and power, and no right for a woman to refuse. Women have had acid thrown at them for not bringing dowry, for bearing a female child and for not cooking a good enough meal. The rising number of acid attack cases from 83 in 2011 to 349 in 2015 shows India's inability to grapple with this heinous crime. Cases continue unabated in various parts of the country, showing the pan-Indian character of this form of assault. Now it is not a rare thing to see an acid attack survivor because it is becoming common these days.

A famous movie "Chhapaak" starring "Deepika Padukone" is also based on the life of an acid attack survivor named "Laxmi Agarwal". She belonged to a lower middle class family in Delhi. In 2005, when she was just 16, acid was thrown on her face just because she refused to sexual advances of a man who was her family acquaintance itself. I mean, what kind of mindset is this that if a girl refuses to fulfill your demands then you will do this with her. Is this male ego? Or what else? It took her almost one year to adapt herself in the situation to come outside and face the society and file a case against him. She had to suffer with a lot of surgeries and so much pain to live normally but she never felt tired to fight against this evil. And also her struggle resulted in a little positive thing too but that is not enough.

One other example is of an Iranian girl named "Ameneh Bahrami". A man injected acid in her eyes just because she refused to his marriage proposal. How can anyone

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान / Professor-Principal
अदिति माहाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
एनएसी संस्थान / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

36

Neetu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

be so cruel? She fought for herself and won the case. There the government is not like the Indian government that took so many years in making a judgement. The court granted her the permission to do what she was demanding. She wanted to do the same thing with that guilty person so that he could feel the pain from which she is suffering because of him but at last moment she ended up not going through with it because she didn't think she could leave with herself after doing it. She now lives in Spain and is a published author. Sadly, her attacker was pardoned by the ayatollah and has since been released. He never has expressed remorse for his actions and Ameneh says the thing she wants to hear him say most is that he is sorry. She did however demand that his family pay for her medical costs.

Acid attack survivors undergo immense daily trauma- they are blinded, scarred beyond recognition, robbed of their identity, often unable to step out of the house, seek employment or lead a normal life ever again. But it was only in 2013, after the Jyoti Singh gang rape and murder case, that India officially acknowledged its seriousness by introducing separate sections in the Indian penal code- 326A and 326B- to deal with acid attackers making the offence non-bailable and specifying a minimum of 10 years to life imprisonment.

By law, acid in India now can only be sold by licensed shops. The shopkeeper is required to maintain a record of the quantity sold and to whom. These details have to be then submitted to the Local Police within three days of the transaction. All stocks have to be declared with the sub-divisional magistrate and declared stocks can be confiscated and a maximum of rupees 50,000 levied as fine.

This, of course, is rarely done. Most of the establishments that use acid are in the unorganised sector as acid is used right from toilet cleaning to jewellery making and in battery shops, car and auto service garages. It continues to be easily available. Only a cup of acid is sufficient to disfigure a person and put her through unimaginable miseries.

Mamta Sharma
प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-समिति / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
राजीव गांधी विश्वविद्यालय / University of Delhi
बाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

37 *N.Rati*
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

So, the government must take some strict actions to uproot this evil completely from our society and from our country. Only then this problem can be solved.

Swati

Roll No.-1902035

B.A. (H) Geography 2nd Year

Social Media: Boon or Curse

In this era of machines and technology where for an individual, what world thinks about him/her matters more, than what he/ she thinks about themselves. It is such an intense topic which somehow gives more priority to our social life than personal life.

Social media is the collections of tools and online spaces available to help individuals and business to accelerate their information and communication needs. But nowadays social media is just is about creating fake personalities impress others. Social media allows people to share content quickly, efficiently through virtual networks and communities.

There are several social media platforms like Facebook, Instagram, and Twitter etc. The first recognisable social media site, SIX DEGREES was created in 1997 by Andrew Weinreich. It enables users to Upload a profile and make friends with other users. According to a recent study Facebook is the most popular social media having millions users.

Social media is one of the most effective, expressive, powerful and persuasive a means of communication today. It is touching almost every sphere of our lives.

As we know, being a global platform social media gained tremendous attention in last decade. Information, news, thoughts all are flows freely from ear to ear in a matter of few seconds thanks to internet.

Mamta Sharma
प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल-बवाना / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
विनायक रोड/बवाना / University of Delhi
बवाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

NRatu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

Just like a coin has two different faces, in the same way social media also exhibit to different aspects. It is fun and exploring for some people, but also believed as a substitution or replacement of human interaction.

There are some positive impacts of social media which led so many reforms and technological advancement in an individual life.

- Social networking has enabled easy access for children in searching for answers on educational or social question and in sharing what they know by posting links videos gathered from web.
- Social networking has led to ambient intimacy, since it allows people to be in touch with loved ones with a different level of regularity which would not normally have access to.
- The new E-commerce is on the rise. People can buy and sell online . It has great economic benefits.
- It is an effective tool to raise political awareness. It can helps in selecting the right person for vote through direct contact.
- It is a platform where people can raise voices for issues like minority rights, injustice, corruption, etc.

Apart from many benefits, social media has dangerous for society too.

- Insecurity and lack of privacy protection causes problems.

The problems like youth isolation, individualism and lack of interest in real life etc., are more intense problems created by social media.

Mamta Sharma

- Somewhere internet addiction and lack of interest in family, destroyed the family system as internet culture doesn't allow users to get out of their social media environment.
- The social media users have given rise to fake lifestyle trends. The fantasy world of social media is creating the negativity and inferiority complex among youths.
- Cyber-crimes like frauds, deception, hacking, misusing of personal data etc. are modern obstacles to the youth.
- Taking the name of freedom of expression the issues of blasphemy and hate speech is on rise.
- Social media can be easily targeted as the best place to create chaos and stress.

Social media is a double sward with both edges, negative and positive impacts on our lives. Social media is the most powerful tool today. It has revolutionized our lives. Therefore, its power should be used wisely and sensibly for development, progress and prosperity of our lives today.

"Don't use social media to impress people, use it to impact people"

Sweety

Roll No.-1902040

B.A. (H) Geography 2nd year

Mamta Sharma

विद्यया यन्मा ज्ञायते/Professor Mamta Sharma
 विद्यापीठ-प्रधान/Professor-Principal
 अधिकांश विद्यापीठ/Aditi Mahavidyalaya
 दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi
 बाना, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

40
N.Rati
I.Q.A.C.
Cordinator
 Aditi Mahavidyala
 Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
 Aditi Mahavidyala
 Bawana, Delhi-110039

IT'S OKAY TO NOT BE OKAY

Once upon a time there was a boy, who lived alone in the forest. He lost his parents in the early age .He always had nightmares. The boy wake up from another awful nightmare. Bad memories from the past that he wanted to erase from his head were replayed in his dreams every night and haunted him nonstop .One day he met a witch, when he was wandering in the forest. The boy told the witch that he would do anything if she erase his past bad memories. The witch erased his past bad memories and told him that she would come back to take what she wanted from him in return for granting his wish .Years went by, and the boy became an adult. He no longer had nightmares. But for some strange reason, he was not happy at all. One night, a blood moon filled the night sky, and the witch finally showed up again to take what he had promised. And he shouted at her with so much resentment. All my bad memories are gone. But why cannot I become happy? Then the witch took his soul as they had promised and told him this. Hurtful, painful memories. Memories of deep regrets. Memories of hurting others and being hurt. Memories of being abandoned. Only those with such memories buried in their hearts can become stronger, more passionate, and emotionally flexible. And only those can attain happiness. So do not forget any of it. Remember it all and overcome it. If you do not overcome it, you will always be a kid whose soul never grows.

Vidhi

Roll No. – 1906018

B.Com. (H) 2nd year

Mamta Sharma

प्राध्यापिका/प्रोफेसर/Professor Mamta Sharma
प्रिन्सिपल/प्रिन्सिपल/Professor-Principal
एडिटी महाविद्यालय/ADT Mahavidyalaya
बौना, दिल्ली-110039/University of Delhi
Bawana, Delhi-110039

41

N.R.
I.Q.A.C. –
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

SEXUAL HARASSMENT

Harassment means when you torture someone badly and when you do it by the means of forced intercourse or when you rape someone is called Sexual Harassment.

Sexual harassment is common in our society with both boys and girls.

But girls are the biggest victims of sexual harassment significantly.

When you harass someone sexually, you treat their body like a toy and by doing that you're making as catastrophic as someone can't even imagine.

In our society it's way too common that boys or the men constantly keep thinking about being physical with women and this becomes the reason behind the rapes that occurs around us .

The thing called lust, this lust is filled inside them monster like men who completely destroys life of some innocent victims.

There are several cases of sexual harassments that we've come across and they tell us the situation of our society. If this thing continues then I'm not afraid of saying that no girl in our society is safe from lust of men. Recently there's this news about a group called " boys locker room " , in which boys aged around 18 years plans about raping a girl .

Look at their mentality, rape is a small word to them that gives them enjoyment. Things are these worse around us and we just can't just keep our mouths shut about things like this.

When it comes to boys they also face sexual harassment which affects their lives too.

In colleges, schools where some seniors for sake of their fun bully and torture their junior sexually.

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिन्सिपल / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

42
NRatu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

There are several cases in which boys have committed suicide as they've faced that ragging that snatched their lives from them.

As a society we have to work against it. We have to start changing people's mind about this thing. This harassment thing is a crime more cruel than killing someone. It's our duty to make this society safe not just for girls but for everyone. Girls are not even safe in their homes. We need to tell people that girls aren't a toy to play with for enjoyment.

We must teach people how to respect everyone the values of a girl's safety.

This will not be a small step but a mission that needs to be continued until we girls feel safe in our society or I may say until we breathe without fear in our society.

Anjali

Roll No.-1906056
B.Com. (H) 2nd year

CHILD LABOUR

"PUT THEM IN CLASSES
NOT IN TEA GLASSES"

Child labour is term you might have heard about in news or movies or you might have seen around yourselves in tea stalls or in dhabas. It refers to a crime where children are forced to work from a very early age. Childhood is the base and golden time for any person, but when the burden of responsibilities is put on the little hand in childhood their whole life get spoiled along with childhood.

Child labour is the biggest stigma on our society and our country, even though the people of India are educated, but when they see a child working as a labourer, they

Mamta Sharma

43

Arati

**I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039**


**NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039**

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
विभागाध्यक्ष / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyala
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

do not help them. Child labour happens due to a number of reasons. Firstly, it happens in a countries that have a lot of poverty and unemployment. When the families won't have enough earning, they put the children of the family to work so they can have enough money to survive. Moreover when people do not have access to education, they will ultimately put their children to work. Furthermore, the money saving attitude of various industries is a major cause of child labour. They hire children because they pay them lesser for the same work as an adult. They only see their profit and this is why they engage children in factories.

As the population of the country is increasing, so too are the child labourers increasing, if it is not stopped soon, it will be the biggest epidemic for our country. Our Indian government has enacted many laws to abolish child labour, but due to their lack of cradle, children are still doing child labour in hotels, tea stalls built on the road sides, but no one pays attention to them. We should carry out the duty of being the true citizen of India. Whenever you see a children doing child labour, then immediately complain to the nearest police station. If we even want the nation to succeed, we must end child labour at once.

Anjana Sharma
Roll No.-2004002
B.A. (H) Social work 1st Year

Contribution of technology in Education

Education is the process of acquiring knowledge, skills development, learning values and beliefs. Learning is not very easy because students have to go through a number of concepts which may be difficult to understand. The mind of every student work differently from each other to absorb knowledge. Sharp minded students can easily understand a concept while some other students may not get it quickly. Students also have a habit of learning by repeating things without thinking and understanding

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा/Professor Mamta Sharma
विद्यालय-प्रधान/Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
राजीव गान्धी विश्वविद्यालय/University of Delhi
बवणा, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

44

N.Retu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

about a particular topic. Is this a right way to learn something? No, the rote learning cannot make things clear in our minds. Students used to do the same who have doubts in their mind.

Introduction of technology has made the concepts clear with the help of smartboards, projectors and animations. Learning through visuality and imagine things is actually a better way of understanding. It involves a lot of fun. Students interact with their teachers easily and participate in the class. Not only this, today's generation use mobile, tablets and laptops very efficiently. We just need an active internet connection and we can search across the globe. E-Books are also available nowadays. One can read it anywhere at any time. Books are need to be reprinted for updation but e-books can be updated anytime without any inconvenience.

During the pandemic situation of COVID-19, where social distancing is necessary, schools and colleges have adopted online classes system for the continuation of studies. It has improved the quality of education and increased the need of digital learning. Webinars have provided a platform where lectures, seminars and sessions can be organised and the speakers share information to large audiences in every part of the world. Technology is providing scope for additional knowledge and improvement of skills at higher level by upgradation in educational apps .Thus, technology has a positive impact on education. It has been motivating students, raising creativity and innovation.

Ishika Narwal
Roll No.-1906055
B.Com. (H) 2nd Year

Gender Discrimination

Equality or non-discrimination is that state where every individual gets equal opportunities and rights. Every individual of the society yearns for equal status, opportunity and rights. However, it is a general observation that there exists loads of

Manita Sharma

प्रोफेसर मनीषा शर्मा / Professor Manita Sharma
मुख्य-प्रमुख / Professor-Principal
आदिती महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
एनएच रोड, बावणा / NH Road, Bawana
दिल्ली-110039 / Delhi-110039

45

N.Rath
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

discrimination between humans. Discrimination exists because of cultural difference, geographical differences, and gender. Inequality based on gender is a concern that is prevalent in the entire world. Even in the 21st century, across globe men and women do not enjoy equal privileges. Gender equality means providing equal opportunities to both man and woman in political, economic, education and health aspect.

How is gender equality measured?

Gender equality is an important factor in determining a countries overall growth. There are several Indexes to measure gender equality. Gender-Related Development Index (GDI) – GDI is a gender centric measure of human Development index. GDI considers parameters like life expectancy, education, and in comes in assessing the gender equality of a country.

Global gender gap index-The World Economic Forum introduced the global gender gap index in 2006. This index focuses moron identifying the level of female disadvantage. The four important areas that the index considers our economic participation and opportunity, educational attainment, political empowerment, health, and survival rate.

As per the World Economic Forum's gender gap ranking, India stands at rank 108 out of 149 countries. This rank is a major concern as it highlights the immense gap in opportunities in women with comparison to men. In Indian society from a long time back, the social structure has been such that the women are neglected in many areas like education, health, decision-making areas, financial independence, etc. Another major reason, which contributes to the discriminatory behaviour towards women in India, is the dowry system in marriage. Because of this dowry system, most of the Indians families consider girls as a burden. Preference for son still prevails. Girls have refrained from higher education. Woman are not entitled to equal

job opportunities and wages. In the 21st century, women are still preferred gender in home managing activities. Many women quit their jobs and opt-out from leadership roles because of family commitments. However, such actions are very uncommon among men.

For overall well-being and growth of a nation, scoring high on gender equality is the most crucial aspect. Countries with less disparity in gender equality have progressed a lot. The Government of India has also started taking steps to ensure gender equality. Several laws and policies are prepared to encourage girls. "Beti Bachao, Beti Padhao Yojna" (Save girl, and make girls educated) campaign is created to spread awareness of the importance of girl child. Several laws to protect girls are also there. However, we need more awareness of spreading knowledge of women rights. In addition, the government should take initiatives to check the correct and proper implementation of policies.

Manjeet Rani

Roll No.-2004001

B.A. (H) Social Work 1st Year

Manita Sharma

श्रीमती मनीषा शर्मा / Professor Manita Sharma
प्रधान-पदा / Professor-Principal
आदि महविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
बाना, शाहीबाग / University of Delhi
दिल्ली, ईमेल-110039 / Bawana, Delhi-110039

47

NRath

I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039



NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

MODERN WOMEN

Nowadays, women doesn't rot
Because women is one who sacrificed a lot,
There are many examples which can be spot,
Mother Teresa worked for humanity – the kind heart
See Rani Lakshmi Bai, the bravest martyr,
Women is the one who wins every one heart,
Mother, sister and wife all are full of art,
Women is the one who is more than devotional than,
See Goddess Sita the way she trusted God Ram,
Women is the one who cares the most,
See Draupadi the way she demolish the ego of Duryodhan at any cost,
Women are more than that as still women,
You be the definition of modern run, Women was ever known
was for her bravery, sacrifice, devotion, love etc.
What they got was slavery,
But you have a special ingredient too,
That is you been the most hard working too,
It might be anything you prove you can outstand everyone,
The modern women or the wonder women one and the same,
Women who managed house, family, friends and work,
Women are more dynamic then men's,
Women who inherits criticism for her gender but
Still grins and manages this world,
And make it place for living,

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रिन्सिपल / Professor-Principal
एडिटी महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
राजीव गांधी विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

48

NRathy
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

Women you been none less than the super God
For all such males over the world,
You been real star who helps us to live happy,
Might be there is no stop to your contribution to us..!
But I would like to take a moment and would love
To appreciate for making the world this good,
And keeping us happy.

Simran
Roll No.-1902010
B.A. (H) Geography 2nd year

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल / Professor-Principal
एडिटी महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
एनएनटी विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

49

N. Ravi

I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

A

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

Photo Gallery

Mamta Sharma

प्रिंसिपल/प्रोफेसर/Principal
महोदय/प्रोफेसर/Professor-Principal
एडिती महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली/University of Delhi
बाना, दिल्ली-110039/Baruna, Delhi-110039

50

Nirato
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

DEPARTMENT OF COMMERCE



ORIENTATION PROGRAM: 20th July, 2019.



HANDLING INTERVIEW: 04th September 2019



SPECIAL LECTURE SERIES- Out of Office: Ten stressed to work; Cyber crime and Social Media; Enhancing Communication Skills: 17th September 2019



CAREER AFTER GRADUATION: 05th November, 2019

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY



Remote Sensing and GIS Workshop by Swastik Educom



GEO-FEST- DIHARITRI CLEAN WATER AND SANITATION



Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
 विभागाध्यक्ष / Professor-Principal
 अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
 स्कूल, इंदौर/University of Delhi
 बारा, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

N.Rath
I.Q.A.C. -
Cordinator
 Aditi Mahavidyala
 Bawana, Delhi-110039

(Signature)
NAAC
Cordinator
 Aditi Mahavidyala
 Bawana, Delhi-110039

Department of Social Work



Opening The Horizons for Third Gender
EXTENSIVE LECTURE SERIES on 24 Sept.
2019



Teacher's Day Celebrations on 5th Sept, 2019



Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

52 *NRetu*
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

DEPARTMENT OF HINDI



GANDHI STUDY CIRCLE



Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
 प्रिंसिपल-बॉय / Professor-Principal
 अधीन महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
 दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
 बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

53 Ratu

I.Q.A.C. -
 Cordinator
 Aditi Mahavidyala
 Bawana, Delhi-110039

DA

NAAC
 Cordinator
 Aditi Mahavidyala
 Bawana, Delhi-110039



Sports day

PRIZE WINNERS



Mamta Sharma

पेठेवर्य सहाय्यक प्राध्यापिका/Professor Mousa Sharma
 प्रोफेसर-प्रधान/Professor-Principal
 अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
 विश्वविद्यालय/University of Delhi
 बावणा, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

Ravi
I.Q.A.C.
Cordinator
 Aditi Mahavidyala
 Bawana, Delhi-110039

Aditi
NAAC
Cordinator
 Aditi Mahavidyala
 Bawana, Delhi-110039

संस्कृत खण्ड

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रमुख / Professor-Principal
राजीव गान्धी विश्वविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
राजीव गान्धी विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

55

Ravi
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

संस्कृतभाषा

संस्कृतभाषा निखिलविश्वभाषासु एका प्राचीना भाषा, यस्याः प्राचीनताविषये स्पष्टरूपेण वक्तुं पण्डिता अपि असमर्थाः सन्ति । व्याकरणेन संशोधिता, सर्वदोषरहिता एषा भाषा देवभाषा, अमृतभाषा इत्यादिभिः जायते । अस्यां भाषायां धर्मार्थकाममोक्षात्मकाः सर्वे विषयाः उपलभ्यन्ते। संस्कृतभाषा अतीव समृद्धशालिनी भाषा भवति। अस्यां भाषायां वैदिक-लौकिकसाहित्ये लिखितानि बहूनि अमूल्यशास्त्राणि सन्ति येषां महत्त्वं समग्रे विश्वे सिध्यति । संस्कृतकाव्यानि तु समग्रस्य विश्वस्य सहृदयानां हृदयं तुष्यन्ति । प्राचीनभारतीयसमाजस्य सर्वतोप्रकाराणां दिशां यथा सामाजिक-राजनैतिक-अर्थनैतिक-सांस्कृतिकादीनां व्यवस्थानां विषये संस्कृतभाषायाः ज्ञानं विना सम्यकरूपेण ज्ञातुं जनाः असमर्थाः भवन्ति ।

वर्तमानसमाजे व्यस्ततापूर्णजीवने जनाः संस्कृते निहितस्य आध्यात्मिकज्ञानस्य अभिनिवेशेन सन्तुलितजीवनयापनार्थं सक्षमाः भवन्ति । संस्कृतभाषायां विरचितानि सुभाषितानि तु प्रत्येकं मानवीयप्रमूल्यबोधस्य प्रजां प्रवहन्ति । सम्प्रतिकाले विद्वांसः संस्कृतभाषायाः शास्त्रतत्त्वानां प्रयुक्तिविज्ञाने परिवेशनविषये गवेषणां कुर्वन्ति । प्रतीकधार्मिकत्वात् अपि च पारिभाषिकत्वात् एषा भाषा सदैव मानवान् नूतनं नूतनं ज्ञानमार्गं प्रदर्शयति। अस्यां भाषायां विद्यमानस्य सदाचारस्य परिपालनेनैव समाजस्य सर्वविधा समुन्नतिः भवति ।

काजल कुमारी
बी ए तृतीय वर्ष

Mamta Sharma

प्रोफेसर जगता शर्मा/Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-उपनिवेश/Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

56 N.Rath
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः शिक्षिकाभ्यः च समर्पितम्

किम् अस्ति तत् पदम्,

यः लभते इह सम्मानम्।

किम् अस्ति तत् पदम्,

यः करोति देशानां निर्माणम्॥

किम् अस्ति तत् पदम्,

यं कुर्वन्ति सर्वे प्रणामम्।

किम् अस्ति तत् पदम्,

यस्य छायायाः प्राप्तम् ज्ञानम्॥

किम् अस्ति तत् पदम्,

यः रचयति चरित्रं जनानाम्।

'गुरु' अस्ति अस्य पदस्य नाम,

सर्वेषु गुरुचरणेषु मम कोटिशः प्रणामः।

नाम - नंदिता

बी.ए. प्रोग्राम, अदिति महाविद्यालय

Mamta Sharma

प्रोफेसर प्रमुख / Professor Mamta Sharma
अदिति महाविद्यालय / Professor-Principal
दिल्ली विश्वविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
बवाना, दिल्ली-110039 / University of Delhi
Bawana, Delhi-110039

57
NR
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

Q
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

सफलाः वयं भविष्यामः

सफलाः वयं भविष्यामः।

एकस्मिन् दिवसे अवश्यम्॥

मनसि अस्ति दृढो विश्वासः।

पूर्णो अयं मम विश्वासः॥

सफलाः वयं भविष्यामः।

एकस्मिन् दिवसे अवश्यम्॥

मिलित्वा समं चलिष्यामः।

गृहीत्वा करान् चलिष्यामः॥

सफलाः वयं भविष्यामः।

एकस्मिन् दिवसे अवश्यम्॥

कलहं नैव करिष्यामः।

मिलित्वा वयं स्थास्यामः॥

सफलाः वयं भविष्यामः।

एकस्मिन् दिवसे अवश्यम्॥

सफलाः वयं भविष्यामः।

एकस्मिन् दिवसे अवश्यम्॥

शशि

170143

बी.ए. (प्रो.)

Mamta Sharma

प्रोफेसर मन्ता शर्मा/Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान/Professor-Principal
अदिती महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

58

Ratu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

सदैव पुरतो निधेहि चरणम्

चल-चल पुरतो निधेहि चरणम्!

सदैव पुरतो निधेहि चरणम्!

गिरिशखरे ननु निजनिकेतनम्।

विनैव यानं नगारोहणम्॥

बलं स्वकीयं भवति साधनम्।

सदैव पुरतो निधेहि चरणम्॥

पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः,

हिंसाः पशवः परितो घोराः।

सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्,

सदैव पुरतो निधेहि चरणम्॥

जहीहि धीतिं भज-भज शक्तिम्,

विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम्।

कुरु-कुरु सततं ध्येय-स्मरणम्

सदैव पुरतो निधेहि चरणम्॥

नाम-भारती

1701511

बी.ए. (प्रो.)

तृतीय वर्ष

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिन्सिपल / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

59
Retu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

एषा मम धन्या माता

एषा मम धन्या माता।
एषा मम धन्या माता॥ ध्रुवपदम्।
या मां प्रातः शय्यातः
जागरयति सम्बोधनेन।
देवस्मरणं या कारयति।
आलस्यं मम नाशयति। एषा मम.....।
कुरु दत्तं सहकार्यं त्वम्,
कुरु सुतः पाठाभ्यासं त्वम्
आदेशं ददती एव
योजयते कार्ये नित्यम्। एषा मम...।
मधुरं दुग्धं ददति या
स्वादु फलं च ददति या।
यच्छति, मह्यं मिष्टानम्,
यच्छति मह्यं लवणान्नम्॥ एषा मम.....।
कार्यं सम्यक् न करोति यदा,
अपराधं विदधामि यदा।
कलहं कुर्वन् रोदिमि यदा
तदा धृशं मां तर्जयति या॥ एषा मम...।

नाम-दिपिका यादव
अनुक्रमांक-1801548
बक्ष-बी.ए. (प्रो.) द्वितीय वर्ष

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्राध्यापिका / Professor-Principal
अदिती महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
विश्वविद्यालय / University of Delhi
बाना, स्क्री-110039 / Bawana, Delhi-110039

60
NRats
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

विद्यायाः महत्त्वम्

1. न चौरहार्यं न च राजहार्यं,
न भ्रातृधान्यं न च धारकारि।
व्ययकृते वर्धते एव नित्यं,
विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्॥

अनुवाद - विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है। न भाई बाँट सकते हैं न यह बाँझ बढ़ाने वाली है। खर्च करने पर जो हमेशा बदलने वाली है। विद्या धन धनों में प्रधान है।

2. विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम्,
विद्या भोगकारी यशः सुखकरी विद्या परा देवता।
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या गुरुणां गुरु,
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम् विद्याविहितः पशुः॥

अनुवाद - विद्या मनुष्य का रूप है अत्यंत गुप्त धन है, भोगों को देने वाली है, यश को देने वाली है, सबसे बड़ा देवता है, विदेश जाने पर विद्या बन्धु के समान है, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है न कि धन। विद्या से हीन मनुष्य पशु है।

3. विद्या ददति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्
पात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम्॥

अनुवाद - विद्या से विनयता आती है, विनयता से पात्रता आती है। पात्रता से धन प्राप्त करता है धन से धर्म तथा धर्म से सुख प्राप्त करता है।

नाम - नेहा

अनुक्रमांक-1801544

Mamta Shanna

प्रोफेसर ममता शान्ना / Professor Mamta Shanna
प्रिंसिपल-प्रधान / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

61

N.Rath
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

[Signature]
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

श्लोका

एहि एहि वीर रे!
एहि एहि वीर रे!
वीरता विधेहि रे!
पद छंद निधेहि रे!
भारतस्य रक्षणाय
जीवनं प्रदेहि रे॥
त्वं हि मार्गदर्शकः
त्वं हि देशरक्षकः
त्वं हि शत्रुनाशकः
कालनागतक्षकः॥
साहसी सदा भवेः
वीरता सदा भजेः
भारतीय-संस्कृति
मानसे सदा धरेः॥
पदं पदं मिलच्यलेत्
सोत्साह मनो भवेत्
भरतस्य गौरवाय
सर्वदा जयो भवेत्॥

नाम-पुनम

रोल नं-1701482

Mamta Sharma

प्रोफेसर माता शर्मा / Professor Mamta Sharma
विभागाध्यक्ष / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

62

Praty
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

व्यायामः

भ्रमण-धावन-क्रीडनादिभिः शरीरं
श्रान्तकरणं व्यायामः कथ्यते।
व्यायामः नित्यं करणीयः भवति।
अस्य नित्यानुष्ठानेन गात्राणि पुष्टानि
भवन्ति। शरीरे- शरीरगत आमस्य विषं
च निर्गच्छति। अनेन पावनकर्म अपि
सम्यक् भवति। व्यवहितः व्यायामः
यथैव स्वास्थ्यप्रदः भवति तथैव
अव्यवहित व्यायामः अस्वास्थ्यकरः
भवति। स्वस्थे शरीरे एव स्वस्थं
मस्तिष्कं भवति। स्वस्थः जनः
सुयोग्यः नागरिकः।
न चास्ति सदृशं तेन भवति।
किञ्चित्स्थौल्यापरकर्मणम्। आरोग्यं
चापि परमं व्यायामादुपजायते।
शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्

नाम-नेहा

कक्षा-बी.ए. (प्रो)

अनुक्रमांक-1801544

द्वितीय वर्ष

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा/Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान/Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
बवाना, दिल्ली-110039/University of Delhi
Bawana, Delhi-110039

63

Mamta
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

सरस्वती वंदना

रवि-रुद्र-पितामह-विष्णु-नुतं, हरि-चन्दन-कुंकुम-पंक-युतम्।
मुनि-वृन्द-गजेन्द्र-समान-युतं, तव नौमि सरस्वति! पादयुगम्॥

शशि-शुद्ध-सुधा-हिम-धाम-युतं, शरदम्बर-बिम्ब-समान-करम्॥
बुहरत्न-मनोहर-कान्ति-युतं, तव नौमि सरस्वति! पादयुगम्॥

कनकब्ज-विभूषित-भीति-युतं, भव-भाव-विभूषित-भिन्न पदम्।
प्रभु-चित्त-समाहित-साधु-पदं, तव नौमि सरस्वति! पादयुगम्॥

भव-सागर-मञ्जन-भीति-नुतं, प्रति-पादित-सन्नति-कारिणम्।
विमलादिक-शुद्ध-विशुद्ध पदं, तव नौमि सरस्वति! पादयुगम्॥

परिपूर्ण-मनोरथ-धाम-निधिं, परमार्थ-विचार-विवेक-विधिम्।
सुर-योषित-सेवित-पाद-तमं, तव नौमि सरस्वति! पादयुगम्॥

सुर-मौलि-मणि छुति-शुभ्र-करं, विषयादि-महा-भय-वर्ण हरम्।
निज-कान्ति विलासित चन्द्र-शिवं, तव नौमि सरस्वति! पादयुगम्॥

गुणनैक-कुल-स्थिति-भीति-पदं, गुण-गौरव-गर्वित-सत्य-पदम्।
कमलोदर-कोमल-पाद-तलं तव नौमि सरस्वति! पादयुगम्॥

नाम-तनू

अनुक्रमांक-1801056

कक्षा-बी.ए. (प्रो.)

द्वितीय वर्ष

Manita Sharma

प्रोफेसर प्रमिता शर्मा / Professor Manita Sharma
प्रधानाचार्या / Professor-Principal
आदिती महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
बाना, दिल्ली-110039 / University of Delhi
Bawana, Delhi-110039

64

N.Raty
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

A
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

हिन्दी खण्ड

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रधानाचार्य / Professor-Principal
एडिटी महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
समूह विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

65 *NRAT*
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

नागरिकता संशोधन कानून

नागरिकता संशोधन कानून 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार असंख्य शरणार्थियों के जीतने में आशा की एक नई किरण लेकर आया है। धर्म के आधार पर विभाजन का दंश झेल रहे अनगिनत परिवारों को इससे नया जीवन मिलेगा। उत्पीड़ित व्यक्ति एवं निराश्रितों को गले लगा वसुधैव कुटुम्बकम् की प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप यह निर्णय निश्चित ही एक गौरवपूर्ण भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करता है। इस निर्णय से हर भारतीय का मस्तिष्क ऊँचा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में जिस प्रकार राजनैतिक इच्छाशक्ति, पूर्ण समर्पण, दूरदर्शिता तथा हृदय में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कई समस्याओं का समाधान निकाला है, उससे यह कहने में कोई संशय नहीं है कि देश प्रगति एवं विकास के पथ पर अब बढ़ रहा है।

वर्तमान सरकार द्वारा पेश किया नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हुआ। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी। इस के साथ यह विधेयक से अधिनियम बन चुका है। इस विधेयक को लोकसभा में 9 दिसंबर तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर को अपनी मंजूरी दे दी थी। यह अधिनियम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णक्षरों से लिखा जाएगा तथा यह धार्मिक प्रताड़ना से पीड़ित शरणार्थियों को स्थायी राहत देगा।

इस कानून के अनुसार, 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक, प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिक बनाने का प्रावधान है।

इसके उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, उन्हें अपनी नागरिकता संबंधी विषयों के लिए एक विशेष विधायी व्यवस्था की जरूरत है। अधिनियम में हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से वंचित न करने की बात कही गई है। और यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्रदान करने की सभी शर्तों को पूरा करता है, तब अधिनियम के अधीन निर्धारित किये जाने वाला सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के अधीन ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पर विचार करते समय उनके विरुद्ध अवैध-प्रवासी के रूप में उनकी परिस्थिति या उनकी नागरिकता संबंधी विषय पर विचार नहीं करेगा।

यह अधिनियम बनने से पहले भारतीय मूल के बहुत से व्यक्ति जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के उक्त अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति भी शामिल हैं, वे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करते थे किंतु यदि वे अपने भारतीय मूल का सबूत देने में असमर्थ थे, तो उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत 'प्राकृतिकरण' (Naturalization) द्वारा नागरिकता के लिए

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-मुख्य / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

Aditi Mahavidyalaya
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

Aditi Mahavidyalaya
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

आवेदन करने को कहा जाता था। इसलिए नागरिकता अधिनियम (1955) की तीसरी अनुसूची का संशोधन कर, इन देशों के उक्त समुदायों के आवेदकों को 'प्राकृतिकरण' द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया है। इसके लिए ऐसे लोगों को मौजूदा 11 वर्ष के स्थान पर पाँच वर्षों के लिए अपनी निवास की अवधि को प्रमाणित करना होगा। 2019 में वर्तमान में भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के कार्ड को रद्द करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 में संविधान को छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की स्थानीय आबादी को प्रदान की गई संवैधानिक गारंटी की सुरक्षा और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1973 की 'आंतरिक रेखा प्रणाली' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रदान किए गए कानूनी संरक्षण को बरकरार रखा गया है।

महात्मा गाँधी (26 सितंबर, 1947) : "पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं, अगर वे वहाँ निवास नहीं करना चाहते हैं। उस परिस्थिति में, उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है।"

भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी एकल राष्ट्र हैं और इसी कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित होना पड़ता है और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री – जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए। क्या वे सांप्रदायिक थे। शायद नहीं। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने भी अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना आवश्यक बताया था।

लेकिन वर्तमान स्थिति में जिन-जिन पार्टियों ने इस कानून का समर्थन किया वही अब इसका विरोध कर रही हैं। दो महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन इसका विरोध अभी तक चल रहा है। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय और अल्पसंख्यक को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन विपक्षी दल सरकार पर देश के टुकड़े करने का आरोप लगाकर जनता में काल्पनिक भय पैदा करने का आरोप लगाकर जनता में काल्पनिक भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। अब जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सही और गलत का फैसला हमें ही करना होगा।

— विधि शर्मा

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा/Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रधान/Professor/Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
रेवक फ़ौजिपुर/University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

67

Rat
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

Aditi
NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

माँ गंगा

(लघु कहानी - जल संरक्षण)

मोहित एक आठ साल का बच्चा था। वह अपने दादा-दादी के साथ गाँव में रहता था। उसकी दादी काफी धार्मिक थी। वह हर सुबह नदी के तट की सफाई करती और फिर स्नान करके नदी की पूजा करती। एक दिन मोहित ने दादी से पूछा - "आप नदी की पूजा क्यों करती हैं?" तब दादी ने कहा - "बेटा, ये माँ गंगा है। इन्हीं के कारण तो हम जीवित हैं।" मोहित थोड़ी देर सोचता है फिर कहता है - "दादी, क्या कुँये भी माँ गंगा हैं?" दादी कहती है - "हाँ बेटा। जल के हर एक बूंद में माँ गंगा है।" मोहित दादी की बातों से प्रेरित होकर जल का माँ की तरह सम्मान करने लगा।

गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थीं तभी मोहित के पिताजी मोहित को शहर ले आए। मोहित एक दिन पिताजी के साथ घूमने निकला। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वह नदी को देखने की जिदद करने लगा। पिताजी उसे नदी किनारे ले गए। मोहित ने नदी को देखते ही दर्द भरी स्वरों में "माँ", "माँ" कहकर पुकारा और नदी की ओर दौड़ पड़ा। पिताजी ने तुरंत भागते हुए जाकर उसको पकड़ दिया। मोहित जोर-जोर से रोने लगता है। पिताजी पूछते हैं - "बेटा तुम ये सब क्या कर रहे हो?" मोहित कहता है - "पिताजी, माँ को किसी ने गंदा कर दिया है। मैं उन्हें साफ करने के लिए जा रहा हूँ।" मोहित का जल के प्रति इस प्रकार के प्रेम ने पिताजी के हृदय में भी जल के प्रति सम्मान व संरक्षण की भावना उत्पन्न कर दी। फिर पिताजी ने अपनी कॉलोनी में जल संरक्षण पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में बाकी लोग भी उनके साथ मिलकर कार्य करने लगे, जिससे जल की समस्याएँ उस क्षेत्र में कम हो गयी।

यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें जल संरक्षण को अपने संस्कार व अपने व्यवहार में लाने की आवश्यकता है, तभी हम जल के अस्तित्व को बचा सकते हैं।

- रानी कुमारी

बी.ए. आनर्स (भूगोल)

द्वितीय वर्ष

तृतीय पुरस्कार

Mamta Sharma

प्रोफेसर गंगा शर्मा / Professor Ganga Sharma
प्रिंसिपल-रानी / Professor-Principal
अडिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
बिस्वविद्यालय / University of Delhi
बबाना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

68
N.Ratu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

नागरिकता संशोधन कानून

नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा में दिसंबर 2019 तो तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया था। 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को पारित कर दिया था।

क्या है नागरिकता संशोधन कानून?

अधिभाजित भारत में रहने वाले लाखों लोग अलग धर्म को मानते हुए आजादी के वक्त के साल 1947 से पाकिस्तान और बांग्लादेश रह रहे थे, इसके साथ ही अफगानिस्तान भी मुस्लिम राष्ट्र है और इन देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई लोग धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार, 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पारसी आर ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी।

मुख्य तथ्य

नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत बांग्लादेश, पकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन तथा ईसाई धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी।

नए कानून के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भार में रहना अनिवार्य था।

जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं अब भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकेंगे।

इस अधिनियम की विशेष बात यह है कि इस अधिनियम में मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकेगी। इसके पीछे कारण यह है कि यह तीनों देश इस्लामी देश हैं और मुस्लिम बहुल हैं।

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रोफेसर-मामता / Professor-Principals
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
श्री श्री विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

69

Retu

I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

मोदी सरकार क्या कहती है?

भारत के तीनों पड़ोसी देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन तथा ईसाई समुदायों के बहुत से लोग धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेल रहे हैं।

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का संविधान उन्हें विशिष्ट धार्मिक राज्य बनाता है इनमें से बहुत से लोग रोजमर्रा के कामों में सरकारी उत्पीड़न झेलते हैं।

इन तीनों देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को धार्मिक पद्धति, उसके पालन और आस्था रखने में बाधा आती है, इनमें से बहुत से भारत में शरण के लिए और वह अब यहीं रहना चाहते हैं, इन लोगों के वीजा या पासपोर्ट की अवधि भी समाप्त हो चुकी है, कुछ लोगों के पास दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन अगर यह भारत को अपना देश मानकर यहाँ रहना चाहते हैं तो सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है।

विपक्षी दलों का क्या तर्क है?

विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है इस हिसाब से यह संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, केंद्र सरकार ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इस वजह से उन्हें धर्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार नहीं माना जा सकता, केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि सरकार दूसरे समुदायों की प्रार्थना पत्रों पर अलग-अलग मामले में गौर करेगी।

पूर्वोत्तर में बवाल क्यों?

नए नागरिकता कानून के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलना आसान होगा लेकिन पूर्वोत्तर के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं।

दरअसल पूर्वोत्तर के कई राज्यों का कहना है कि अभी भी बड़ी संख्या में उनके राज्य या इलाके में इस समुदाय के लोग ठहरे हुए हैं, अगर अब उन्हें नागरिकता मिलती है तो वह स्थाई हो जाएंगे इससे उनकी संस्कृति, भाषा, खानपान और अन्य पहचान को खतरा हो जाएगा।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 में है कुछ खास?

पहले भारत की नागरिकता पाने के लिए 11 साल की अवधि अनिवार्य थी परंतु अब उसे 7 साल कर दिया गया है।

Mamta Sharma

जेडएच गवर्नर प्रोफेसर/Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल-गवर्नर/Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi
बवणा, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

70

Aditi
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

यदि भारत की नागरिकता चाहने वाले व्यक्ति के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है तब भी उसे नागरिकता दी जा सकती है। तथा जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं अब भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकेंगे।

— पूजा त्यागी
बी.ए. प्रोग्राम
प्रथम वर्ष
(द्वितीय पुरस्कार)

नागरिकता संशोधन कानून

CAA = Citizen Amendment Act (नागरिकता संशोधन कानून)

CAA 2019 में हमारे तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से आए 6 समुदाय (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं क्रिश्चियन) के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करना है। अर्थात् भारत के तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से भारत आए और गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है।

NRC = National Citizen Register (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर)

इसके तहत भारत में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी होनी है अभी यह प्रक्रिया सिर्फ असम में लागू की गई है। एनआरसी (NRC) को लेकर असम में यह विवाद हुआ कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भी नागरिकता की लिस्ट से बाहर रखा गया है जो देश के असल निवासी हैं। ऐसे लोगों के समाधान के लिए सरकार ने CAA (नागरिकता संशोधन कानून 2019) बनाया जिसको लेकर देश में विरोध हो रहा है।

नागरिकता कानून अधिनियम – 1955 – कानून के मुताबिक उन अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज (जैसे पासपोर्ट, वीजा) के बगैर घुस आए हों या फिर

Mamta Sharma

प्रोफेसर राजेश एच. Professor Mamta Sharma
विद्यार्थी प्रमुख / Professor-Principal
औद्योगिक प्रौद्योगिकी/ Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवना, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

71

I.Q.A.C.
Coordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Coordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए हों लेकिन उसमें उल्लेखित अवधि से ज्यादा समय से यहाँ रुके हों। अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2015-16 में उपरोक्त अधिनियम 1946 और 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2015-16 में उपरोक्त अधिनियम 1946 और 1920 के कानून में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को छूट दे दी है इसका मतलब यह हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में गैर दस्तावेजों के भी रहते हैं तो उनको न तो जेल में डाला जाएगा और न ही निर्वाचित किया जाएगा। यह छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर 2014 को यहाँ इससे पहले भारत में आ चुके हैं इन्हीं धार्मिक समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन हेतु नागरिकता संशोधन विधेयक - 2016 संसद में पेश किया गया था, इस विधेयक को 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था और 12 अगस्त 2016 को इससे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद 8 जनवरी 2019 को विधेयक लोकसभा में पेश हुआ लेकिन उसमें यह विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया था और इसी बीच 16वां लोकसभा का कार्य कार्यकाल समाप्त हो गया इसलिए इस विधेयक को फिर से दोनों सदनों में पेश किया गया जिसे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया और यह 311 बनाम 80 वोटों से यह विधेयक पारित हो गया। इसके बाद 11 दिसंबर 2019 को इसे राज्यसभा में पेश किया और यह 125 बनाम 99 वोटों से पारित हो गया। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा पास होने पर यह कानून बन गया।

नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव - CAA 1955 में भारत नागरिकता पाने के लिए 11 साल का समय लगता था लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया जिसमें भारत की नागरिकता 11 साल से हआकर 6 साल कर दी गई अब गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता पाना और आसान हो जाएगा।

देश में हो रहा बिल का विरोध - पूर्वोत्तर में - देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बिल का विरोध हो रहा है उनकी चिंता है कि पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता प्रदान की जा सकती है क्योंकि बांग्लादेश में मुसलमान और हिंदू दोनों ही बड़ी संख्या में अवैध तरीके से बसे हैं।

पूर्वोत्तर के लोगों का विवाद / विरोध का कारण यह भी है कि अगर नागरिकता कानून 2019 को लागू किया जाता है तो पूर्वोत्तर के मूल लोगों के समान पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा।

विरोधियों का कहना है कि यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस कानून में देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। यह देश में अवैध रूप से रह रहे 6 धर्मों के लोगों को तो शरणार्थी मानकर नागरिकता देने की बात करता है लेकिन ऐसे मुस्लिमों को घुसपैटिए बताता है। इस कानून को एनआरसी की तैयारी भी बताया जा रहा है। भविष्य में एनआरसी लाने पर सिर्फ मुस्लिमों को ही अपनी नागरिकता साबित करनी होगी बाकी छह धर्मों को इससे छूट मिलेगी, वह मुस्लिम जो भारत

Mamta Sharma

72

प्रोफेसर रामारानी/Professor Mamta Sharma
 प्रिंसिपल/Principal
 अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
 दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi
 बावना, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

Arati
 I.Q.A.C.
 Cordinator
 Aditi Mahavidyala
 Bawana, Delhi-110039


 NAAC
 Cordinator
 Aditi Mahavidyala
 Bawana, Delhi-110039

की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे उन्हें असम की तर्ज पर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा इसलिए यह धार्मिक भेदभाव वाला कानून है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

विपक्ष का जनता को भड़काना – विपक्ष को पता है कि इसका भारत के नागरिकों पर असर नहीं पड़ने वाला लेकिन 370, राम मंदिर, तीन तलाक पर प्रतिरोध न होगा सब कुछ शांति से निपट जाने पर विपक्ष काफी चकित था उसे इस तरह का निष्कटक राज्य पसंद नहीं आ रहा था इसलिए उसने एनआरसी का डर दिखा लोगों को भड़काया जिससे देश में इतनी हिंसा हो गई, इससे विपक्ष का यह पासा भी उल्टा ही पड़ता दिखा दे रहा है।

CAA-2019 के दूरगामी परिणाम – CAA के माध्यम से सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को ऐसा सबक सिखाया है जिससे यह तिलमिला तो गए हैं लेकिन अपना दर्द नहीं बयान कर पा रहे हैं। सरकार ने यह बिल लेकर बिना इसका नाम लिए पूरी दुनिया को बता दिया कि इन देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है।

बिल पास होते ही बांग्लादेश को दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहना पड़ा कि वह अपने सभी नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है। उसने स्वीकार भी किया कि उसके यहाँ और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ है।

कश्मीर में उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान ने ऊल जलूल बयान दिया लेकिन यूएन की रिपोर्ट ने उसका पोल खोल दी।

इस कानून के आने से पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रहे हैं, पर रोक लगेगी। यह उत्पीड़न अब एक दस्तावेज रिपोर्ट बन गया है जुबानी जमा खर्च नहीं है। भारत में जितने लोगों को यहां नागरिकता दी जाएगी यह दोनों देश उतने ही एक्सपोज होंगे।

इस बिल के कानून बनते ही बांग्लादेश शरणार्थियों को वापस लेने के लिए म्यांमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

CAA 2019 सिर्फ भारत के तीन करीबी देशों को 6 अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता करने के उद्देश्य से लाया गया है। इन तीन देशों को अपना राजधर्म है। इन तीनों देशों में (मुस्लिमों) बहुसंख्यक का उत्पीड़न नहीं होता है इसलिए सरकार ने बहुसंख्यक को इस बिल से बाहर रखा है।

विदेश में किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न का शिकार कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेने के लिए द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आवेदन कर सकता है उसके लिए CAA 2019 नहीं है।

गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होगा। सभी भारतीय नागरिकों को संविधान के तहत अधिकार मिला हुआ है। CAA का मतलब किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित करना नहीं है। इसकी बजाए CAA एक कानून है जो 3 पड़ोसी देशों के धार्मिक रूप से शिकार हुए लोगों को भारतीय नागरिकता देगा। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा/Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल/Principal
आदिती महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
राजको विश्वविद्यालय/University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

Aditi
I.Q.A.C.
Coordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

Aditi
NAAC
Coordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

सीएए का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। एनआरसी का कानून प्रावधान दिसंबर 2004 से नागरिकता कानून 1955 का हिस्सा है, इसके अलावा इन कानूनी प्रावधानों के लिए विशेष वैधानिक अधिनियम 2003 बनाए गए हैं।

— अंजलि

बी.ए. आनर्स (भूगोल)

द्वितीय वर्ष

प्रथम पुरस्कार

खाहिशें

असफलताओं से कुछ सीख कर,
खुद की गलतियां दूढ़ने की है मेरी आदतें,
हौसला बुलंद मेरा!
मंजिलों की है ख्वाहिशें।
इंसानियत की अस्तित्व हूँ,
सच्चाई का है रंगों में खून,
आत्म विश्वास मन में लिए
मैं खुद को कल का भविष्य कहूँ।
जीवन में कभी खुशी तो कभी गम का फसाना है
हर मुश्किलें मुस्कुरा कर पार करती हूँ मैं !
यही जिंदगी, यही ठिकाना है।
अभी शुरुआत है जनाब,
हमें तो आसमान तक जाना है।

— निकिता वर्मा

बी.ए. प्रोग्राम

(प्रथम वर्ष)

Mamta Sharma

प्रोफेसर शर्मा/Prof. Mamta Sharma
प्रोफेसर-प्रैक्टिकल/Professor-Practical
अदिती महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

74
Rati
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

स्कूल

सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना था,
होमवर्क ना होने पर, कॉपी घर पे भूल गये,
ये भी एक बहाना था।
हर घंटी में पानी पीना है,
बोलकर पूरे कॉरिडोर का चक्कर लगाना था।
लंच के पहले ही सारा लंच खा जाना था।
हर रोज किसी न किसी बहाने
क्रिकेट और बॉलीबाल खेलने जाना था।
आठ घंटे स्कूल में रोज बीत जाने वाला
पल कितना सुहाना था।

— निकिता वर्मा
बी.ए. प्रोग्राम
(प्रथम वर्ष)

जब पढ़े तब करे

यह एक समय की बात है। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता है। हमारा घर एक कच्ची कॉलोनी में है,
जहाँ खारे पानी की सुविधा है और मीठा पानी बहुत कम आता है सिर्फ पीने के लिए आता है। पानी के लिए
बहुत किल्लत झेलनी पड़ती है।

पर आजकल

सरकार की मेहरबानी के कारण यहाँ रोजाना पानी आता है। सभी को नियमित रूप से पानी मिलता है।

Mamta Sharma

प्रोफेसर मन्ता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल-बवणा / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

75

NR
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

और जो हमारी पड़ोसन, शारदा आंटी है उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला हो पानी खैचने का, कोई उन्हें कितना भी समझाए . . . की पानी कम बहाया करो... पानी बहुमूल्य है...पर उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती।

वह अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में रोजाना लगी रहती हैं। जहाँ एक बाल्टी खैचना होता है वहाँ चार बाल्टी खैचती हैं।

पर मजा तो तब आया जब मीठे पानी ने दो हफ्तों तक अपनी शकल न दिखाई। कॉलोनी में सभी अपने डब्बे, टंकिया भर कर रखते थे। आंटी ने भी रखी थी।

पर आंटी तो पानी खर्च करने की आदि थी वह कहीं

मानने वाली थी। वह रोज पानी की टॉटी खोलकर देखती कि कहीं पानी तो नहीं आ रहा, पर पानी नहीं आता।

आंटी कुछ न कुछ बुरा भला कहकर रह जाती और आस-पड़ोस से पीने का पानी इकट्ठा करती।

उन दो हफ्तों में उन्हें पानी के लिए बहुत जद्दो-जहद करनी पड़ी।

धीरे-धीरे उन्हें एहसास होने लगा था कि पानी कितना कीमती और बहुमूल्य है और हमें इसे सीमित मात्रा में खर्च करना चाहिए।

आंटी ने अपनी आदत को सुधारा और पानी का सम्मान करने लगी। अब वह जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक भी करती हैं।

आज से समझें और पानी बचाएँ

पानी का स्तर बहुत घट चुका है।

लापरवाही न दिखाएँ पानी के प्रति।

जिम्मेदार नागरिक बनें और पानी जायां न करें।

— किरण कुमारी

बी.एच.जे. (द्वितीय वर्ष)

Mamta Sharma

प्रोफेसर अमिता शर्मा/Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल-अमिता/Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
भारतीय विश्वविद्यालय/University of Delhi
बवणा, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

76

N.Retu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

बेवकूफ नाला और चतुर नदी

नाला नदी से – सुनो सुंदरी, मैं आपके सौंदर्य से अभिभूत हूँ, क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी?
क्या आप मुझसे विवाह करेंगी?

नाले का विवाह प्रस्ताव नदी के लिए अप्रत्याशी था। नदी मौन धारण किए सोचने लगी।

यह गंदा नाला, मयौदाहीन बेवकूफ नाला इसका प्रस्ताव मैं कैसे स्वीकार करूँ?

तभी नाला बोला

क्या हुआ सुंदरी, मैं आपकी सुंदरता से प्रसन्न हो चुका हूँ। मैं आप में मिल जाना चाहता हूँ।

(ऐसे कहते हुए नाला नदी के पीछे पर गया। नदी उसको निराश नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने बड़ी ही चतुराई से ठुकराने का विचार किया। नदी ने विचार किया कि मैं नाले को मई-जून में विवाह करने की शर्त रखूँगी क्योंकि इस माह से नाले सूख जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं और कहा –

‘मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ परंतु मेरी एक शर्त है

बेवकूफ नाले ने बिना सोचे-समझे विनयमता से कहा कहिए

कहिए मुझे आपकी शर्त स्वीकार है।

नदी ने कहा पहले मेरी शर्त तो सुन लीजिए।

हमारे यहाँ बरसात के मौसम में विवाह नहीं होते बल्कि मई और जून के महीने में किए जाते हैं। आप बताइए आप मई-जून में विवाह करेंगे तो मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ।

बेवकूफ नाला बिना सोचे समझे बोल पड़ा ‘मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं अभी से मई-जून का इंतजार करूँगा।

तत्पश्चात् नदी वहाँ से हँसते हुए चली गई।

– डॉ. नीलम राठी

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा/Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल-प्रधान/Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi
बवणा, दिल्ली-110039/Bawana, Delhi-110039

77

Retu
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

जलबूंद का बुरा स्वप्न

मैं खुद को छुपा रही थी वैसे धरती माँ ने मुझे वर्षों से अपनी गोद में छुपा रखा था। आकाश भाई ने मुझे अपने बादल में छुपा रखा था। फिर आज ये कैसा संजोग की आज मुझे खुद को छुपाना पड़ रहा है. आप लोग उत्सुक हैं ना, मैं कौन हूँ?, बताती हूँ, विस्तार से बताती हूँ. मैं निर्मल, पवित्र, हर प्राणियों की जीवनदायिनी, चाहे वह पेड़ हो या पक्षी, मानव हो या पशु। मेरे बिना किसी का अस्तित्व नहीं। अब समझे ! चलो मैं ही बता देती हूँ मैं जल क एक बूंद हूँ। पहले वर्षों पहले मेरी बहुत बड़ प्रजाति हुआ करती थी, इतना विशाल और असीम कि कोई माप ना सके. . . इतना निर्मल और स्वच्छ कि सबकी प्यास बुझा सकूँ पर अब मझमे वह क्षमता कहाँ कि अब मैं किसी की प्यास बुझा सकूँ। वह भी क्या दिन थे जब मैं कुआँ, सागर, तालाब, झरना, पौखर. . . इत्यादि के रूप में अपने परिवार के साथ रहती थी। मेरे और भी बहुत सारे दोस्त थे. . . . मनुष्य, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, जलीय जीव. . . इत्यादि किंतु आज इनका भी अस्तित्व नहीं है। आज मैं बूंद भर हूँ. . . आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ. . .।

मुझे आज भी याद है कि मेरा रिमझिम रिमझिम होकर बरसना. . . . कल-कल झरनों से बल खा कर मचलना. . . तो कभी भाप बन ईंधर से उधर घूमना . . .।

मनुष्यों का एक त्यौहार भी होता था। जिससे मनुष्य मेरे तन में रंग घोलकर एक दूसरे के ऊपर फँकते थे. . . मुझे याद आया उस त्यौहार को लोग होली कहते थे। पर इसको मैं त्यौहार नहीं कहूँगी क्योंकि इस दिन मेरी बर्बादी चरम पर होती थी. . .। इन मनुष्यों को ही मैं अपने इस जाल का जिम्मेदार मानती हूँ। त्यौहार तो त्यौहार मुझे रोज व्यर्थ से बहाना तो इन लोगों का रोज का काम था। वाहन की धुलाई से लेकर बाथरूम के शावर तक मैं मु व्यर्थ का बर्बाद करते थे. . . ये लोग यहाँ तक कि कटाई की तौ की पर इन्होंने दोबारा लगाया ही नहीं. . . इस प्रकार इन मनुष्यों ने मुझे दूषित किया है साथ ही मुझे और मेरे साथियों को लुप्त भी कर दिया।

मुझे आज भी वह भयंकर दिन याद है जब संपूर्ण मानव जाति अपने ही अंत की तरफ बढ़ रहे थे तथा संपूर्ण मानव जाति रणक्षेत्र में उतर आयी थी। जहाँ मेरे लिए लोग एक दूसरे को मार रहे थे हालात थे कि भाई-भाई को मेरे लिए मार रहा था। यहाँ तक कि मेरी सुनवाई कार्ट में होती थी, भाई-भाई पर जल चोरी का मुकद्दमा दायर करता था, वकील भी अपनी फीस में मेरा यानी जल का पचास फीसदी से लेते थे और एक बोतल जल का मुकद्दमा वह जीतता है तो आधा बोतल जल उसे वकील को देना पड़ा. . . मनुष्य इस जल युद्ध का काल कहा करते थे. . .।

ओ भाई उठ आ. . . ये ध्यान मेरे कान में सुनाई दी और मेरी नींद खुली तो पता चला कि मैं एक सपना देख रहा था और मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हैं। मेरे दोस्त सुरक्षित हैं और बहन बूंद रानी मुझे नींद से जगा रही थी।

Mamta Sharma

प्रोफेसर मन्ता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल / Professor-Principal
एडिटी महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
एडिटी विश्वविद्यालय / University of Delhi
एडिटी, दिल्ली-110033 / Aditi, Delhi-110033

78

Aditi
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039

अरे, अरे. . . अरे ये क्या मुझे एक मशीन धरती से ऊपर की तरफ खींच रही थी क्या अब मैं और मेरी बहन दोनों एक नीले रंग के पाइप से होते हुए नाले में जा गिरे हैं। मैं बोलता रहा कि मुझे मत बर्बाद करो पर उस मनुष्य ने मेरी एक सुनौ. . . .।

मुझे आज लग रहा है कि मेरा बुरा सपना सच होने के कगार पर है. . . .।

— काजल कुमारी

(बी.ए. प्रो. द्वितीय वर्ष)

द्वितीय पुरस्कार

मुझे जीने तो बाबा

मुझे जीने तो दो बाबा, मैं रास्ता ढूँढ खुद ही राह बना लूँगी।
एक एहसान बस मुझ पर कर देना, तुम हैवानी से बचा लेना।
मुझे जीने तो दो बाबा, मैं रोशनी की किरण बनकर रहूँगी।
एक एहसान बस मुझ पर कर देना, तुम मन में विश्वास जगा लेना।
मैं बाइक नहीं मींगूँगी बाबा, बस तुम पढ़ने को किताब और लिखने को कलम दिला देना।
जागीर में हिस्सा मत देना, बस स्कूल में दाखिला दिला देना।
तुम लड़ने देना बाबा, मैं जीत कर दिखा दूँगी।
तुम पढ़ने देना बाबा, मैं तेरा गर्व बनकर दिखा दूँगी।
तुम उड़ने देना बाबा, मैं आसमान को छूकर आऊँगी।
एक एहसान बस मुझपर कर देना, तुम शाबाशी देकर पीठ मेरी थपथपा देना।
मुझे जीने तो बाबा, मैं मान तेरा बढ़ा दूँगी।

— जहीन खान

बी.ए. प्रोग्राम (2 वर्ष — 3 सेमेस्टर)

Manita Sharma

प्रोफेसर मनीता शर्मा/Professor Manita Sharma
प्रिंसिपल-बवणा/Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi
बवणा, दिल्ली-110029/Bawana, Delhi-110039

79

Manita
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

कुछ कर बंदे

कुछ कर ए बंदे ऐसा किसी ने ना किया हो जैसा, यह मत सोच कि कल क्या होगा? बस सोच की होगा तो क्या होगा? मत सोच अकेला है इन राहों में। बस सोच की दम है इन बाहों में, मत सोच अकेला क्या देश बदल सकेगा। सोच कि तू कुछ यह कर सकूंगा। मत सोच व्यर्थ के बंधनों के बारे में, सह बंधन तो स्वार्थ साधक हैं। वह आकर्षण है, यह लगता है, बस मात्र तेरे बाधक है। जो मित्र है जिन्हें तू अपना समझता है, वह तुझ पर नहीं तेरी माया पर मोहित हैं, जो खोया ही नहीं तू ने पाने सह पहले उस पर क्यों क्रोधित है। तू सौंपता है अपने साथ देंगे। साथ निभाएँगे, मगर समझ जा यह अपने ही तेरी राह में काँटे बिछाएँगे, गैरों से लड़ेंगे गैरों से भिड़ेंगे। जब अपने साथ न देंगे तब क्या करेगा? अकेला आया, अकेला जाएगा फिर क्यों इस मेले में घूमता है झूठे इन सब चेहरों में तू अपनों को क्यों दूँडता है? कब अपने वह होते हैं, जो दुख में साथ निभाते हैं। उनमें भोजन की कामना क्यों करते हो, जा औरों के हिस्से का भी खाते हैं इसलिए संजय पवार वह लिखता है जो संसार उसे दिखाता है, और कहता है अपनों से तो गैर भले झूठे रिश्ते से तो गैर भले।

— संजय पवार

पुस्तकालय सहायक

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल / Professor-Principal
अदिती महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110035 / Bawana, Delhi-110039

80

Aditi
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

आधुनिक युग में श्रीमद्भागवतगीता का औचित्य

श्रीमद्भागवतगीता दुनिया के चंद ऐसे महान् ग्रंथों में से एक है जिसे पुरातन समय से लेकर आज आधुनिक काल में भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ा जाता है और पूजनीय माना जाता है। क्योंकि इसका एक-एक श्लोक हमें अपने जीवन में सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म में भगवद्गीता को अत्यंत पवित्र तथा महान् दर्जा प्राप्त है। इसकी पवित्रता तथा श्रेष्ठता का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मृत्यु शय्या पर पड़े व्यक्ति को यदि गीता का पाठ सुनाया जाए तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अदालत में गीता पर हाथ रखकर अपनी सच्चायी की कसम दिलायी जाती है।

लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में (कौरव-पांडवों के युद्ध में) भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो 'भगवद्गीता' के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीकृष्ण ने कर्म और ज्ञान को एक समझने वाले व्यक्ति को विद्वान कहा है। क्योंकि वो स्थान ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है वही स्थान हमें अपने कर्म से भी मिलता है। जो व्यक्ति कल की इच्छा छोड़कर कर्म करने में तत्पर रहता है वही ईश्वर में निष्ठा रूप शान्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में कर्मफल की व्याख्या की है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिए गये उपदेश केवल अर्जुन के ही लिये थे, अर्जुन तो केवल एक माध्यम था समाज और देश को सत्कर्मों की श्रेष्ठता बताने के लिए। ये उपदेश समस्त

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिन्सिपल-असस / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
बवणा, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

81

N.R.
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

विश्व में किसी के भी लिए प्रेरणास्त्रोत साबित हो सकते हैं। इसीलिए भगवद्गीता भारतीय परिवारों में पायी जाती है। यह केवल ज्ञान का ही स्त्रोत नहीं है अपितु जीवन जीने की कलाओं को भी बताती है। यदि समाज और देश को सुचारू रूप से चलाना है तो समाज में व्याप्त अत्याचारियों को समाप्त करना अति आवश्यक है - यह एक सत्कर्म है। इसी कर्म के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया।

स्वामी विवेकानन्द 'भगवद्गीता' से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका (शिकागो) में विश्वधर्म संसद से अपने भाषण में भगवद्गीता के अद्भुत उपदेशों के माध्यम से भारतीय धर्म की व्याख्या की। स्वामी विवेकानंद आज भी युवाओं के प्रेरणास्त्रोत हैं। इनका जन्म दिन राष्ट्रीय युवा दिव के रूप में मनाया जाता है।

'भगवद् गीता' न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि समस्त मानवजाति के लिये कल्याणप्रद तथा प्रेरणादायी है। मनुष्य कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए किंतु उसकी देह (शरीर) पंचतत्वों से ही निर्मित होती है। आधुनिक बनकर मानव अपना रहन-सहन, खान-पान, धर्म, आचार-विचार, तौर-तरीके तथा वेशभूषा आदि तो बदल सकता है किंतु अपने शरीर को नहीं बदल सकता। समाज में रहते हुए मानव को सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समस्या से उत्पन्न मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में मानव शांति ढूंढता है, समस्याओं का हल खोजता है और ऐसे में केवल "भगवद्गीता" ही एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इस महान ग्रंथ में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म

Mamta Sharma

प्रोफेसर ममता शर्मा / Professor Mamta Sharma
प्रिंसिपल / Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय / Aditi Mahavidyalaya
सिटी विश्वविद्यालय / University of Delhi
बावना, दिल्ली-110039 / Bawana, Delhi-110039

N.Raito
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyala
Bawana, Delhi-110039

से संबंधित जो उपदेश दिए गए हैं वो हमारी समस्याओं को पलक झपकते ही हल कर देते हैं और जीवन जीने की कला सिखाते हुए सफलता की प्रेरणा देते हैं।

आधुनिक युग में मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए क्योंकि क्रोध व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी है कि - क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। बुद्धि से सोचने-समझने की शक्ति खो देती है और व्यक्ति के तर्क नष्ट हो जाते हैं, अंत में व्यक्ति का नाश हो जाता है।

अन्ततः श्रीमद्भागवद्गीता का शाश्वत ज्ञान अखण्ड और शांति प्रदान करने वाला है। यह संसार में व्याप्त बहुत से नियमों, नीतियों तथा सिद्धान्तों का सार है। यदि मानव वैज्ञानिक सांसारिक तनावों और चिन्ताओं से मुक्ति या राहत पाना चाहता है तो उसे श्रीमद्भागवद्गीता से प्रेरणा एवं उसकी शरण लेनी चाहिए।

डॉ. मंजु रानी

सहायक प्रवक्ता

हिंदी विभाग

Manita Sharma

प्रोफेसर मंजु शर्मा/Professor Manita Sharma
प्रिंसिपल-प्रिंसिपल/Professor-Principal
अदिति महाविद्यालय/Aditi Mahavidyalaya
दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi

Neethy
I.Q.A.C.
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039


NAAC
Cordinator
Aditi Mahavidyalaya
Bawana, Delhi-110039